



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 1—मार्च 7, 2008 (फाल्गुन 11, 1929)  
No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 1—MARCH 7, 2008 (PHALGUNA 11, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय  
सेना शाखा

नई दिल्ली, दिनांक 1 मार्च 2008

सं. 103, दिनांक 13 फरवरी 2008—राष्ट्रपति, निम्नलिखित महिला अधिकारियों को लेफ्ट के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

नियमित सेना  
(अल्प सेवा आयोग)  
लेफ्ट के पद पर

निम्नलिखित 40 महिला अधिकारियों ने अल्प सेवा आयोग (परखाधीन) का छः मास का समय जो कि दिनांक 17 मार्च 2007 से आरंभ हुआ था, पूरा कर लिया है। उनको उसी तिथि दिनांक 17 मार्च 2007 से सेनानुदेश 1/एस/92 के अन्तर्गत लेफ्ट के पद पर पाँच वर्ष के लिए अल्प सेवा आयोग प्रदान किया जाता है।

नाम, डब्ल्यूएस सं. तथा आर्म/सर्विस

अनुशेखा रावत (डब्ल्यूएस-01280एल), सिग्नल

वन्दना शर्मा (डब्ल्यूएस-01281एन), एओसी

नेहा जैन (डब्ल्यूएस-01283वाई), एएडी

नीतू पचौरी (डब्ल्यूएस-01284एफ), एओसी

प्रियंका काण्डपाल (डब्ल्यूएस-01285के), एओसी

दीपिका सैनी (डब्ल्यूएस-01287पी), एएससी

नीरजा सिंह (डब्ल्यूएस-01289ए), एएडी

मोनू कुमारी (डब्ल्यूएस-01293एम), एएससी

आशा कुंतल (डब्ल्यूएस-01297वाई), एओसी

ए अरुणमरीना (डब्ल्यूएस-01298एफ), एओसी

शैलजा डोगरा (डब्ल्यूएस-01299के), एईसी

दिपाली ए करवंदे (डब्ल्यूएस-01300एन), इन्ट

सुशीला देवी (डब्ल्यूएस-01301डब्ल्यू), एएडी

अमनप्रीत कौर (डब्ल्यूएस-01303एफ), एओसी

अल्पना (डब्ल्यूएस-01304के), एओसी

अस्मिता (डब्ल्यूएस-01307एक्स), एओसी

हरजीत कौर (डब्ल्यूएस-01311ए), एएडी

पशिने मोनल निखिल कुमार (डब्ल्यूएस-01312एच), जेएजी

चारूल भट्ट (डब्ल्यूएस-01313एल), जेएजी  
 सुजाता चौधरी (डब्ल्यूएस-01314एन), आईसी  
 ऋचा दत्त (डब्ल्यूएस-01315डब्ल्यू), इन्ट  
 नवदीप कौर (डब्ल्यूएस-01317एफ), आईसी  
 सौमिता गांगुली (डब्ल्यूएस-01321के), आईसी  
 संगीता (डब्ल्यूएस-01322एम), एएससी  
 वैशाली शर्मा (डब्ल्यूएस-01323पी), जेएजी  
 नीता घोष (डब्ल्यूएस-01325ए), एओसी  
 प्रियदर्शिनी (डब्ल्यूएस-01327एल), एओसी  
 बेबी पदमजा थोटा (डब्ल्यूएस-01330एल), एओसी  
 रितिका शर्मा (डब्ल्यूएस-01331एन), एओसी  
 रजनी चवाकुला टी एस (डब्ल्यूएस-01332डब्ल्यू), एएससी  
 रतनदीप कौर प्लाह (डब्ल्यूएस-01333वाई), इंजीनियर  
 श्वेता श्रीवास्तव (डब्ल्यूएस-01335के), एएडी  
 स्वाति शेखावत (डब्ल्यूएस-01337पी), एएससी  
 शीतल शर्मा (डब्ल्यूएस-01339ए), एएडी  
 रिनु सोलंकी (डब्ल्यूएस-01343एच), एएससी  
 हिमानी लूथरा (डब्ल्यूएस-01344एल), आईसी  
 प्रमिला कुमारी आलवा यू (डब्ल्यूएस-01346डब्ल्यू), एओसी  
 अराधना (डब्ल्यूएस-01348एफ), एएससी  
 उपासना यादव (डब्ल्यूएस-01350वाई), एएससी  
 कुमारी नूपुर (डब्ल्यूएस-01352के), एओसी

सेनानुदेश 10/96 (सूची पत्र संख्या 9, दिनांक 01 जून 1996) विशेष सेनानुदेश 1/एस/92 के अन्तर्गत निम्नलिखित 30 महिला अधिकारियों को विशेष अल्प सेवा आयोग (परखाधीन) लेफ्टि के पद पर उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से प्रदान किया जाता है। उनको प्रशिक्षण की समाप्ति पर विशेष सेनानुदेश 1/एस/92 के अन्तर्गत दिनांक 17 मार्च 2007 से पाँच वर्ष के लिए अल्प सेवा आयोग प्रदान किया जाता है। उनको दो वर्ष पूर्व दिनांक 20 मार्च 2005 से वेतन तथा प्रोन्नति के लिए उपरोक्त सेनानुदेश के अन्तर्गत वरीयता प्रदान किया जाता है।

नाम, डब्ल्यूएस सं., विशेष अल्प सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि तथा आर्म/सर्विस

चारू शर्मा (डब्ल्यूएस-01282डब्ल्यू), 03 अक्टूबर 2006, सिग्नल  
 तान्या पाल चौधरी (डब्ल्यूएस-01286एम), 03 अक्टूबर 2006, सिग्नल  
 निधि चंदेल (डब्ल्यूएस-01288एक्स), 03 अक्टूबर 2006, इंजीनियर  
 सुमन कुमारी (डब्ल्यूएस-01290पी), 20 अक्टूबर 2006, सिग्नल  
 घोडके माधुरी दत्तात्रेय (डब्ल्यूएस-01291एक्स), 03 अक्टूबर 2006, सिग्नल

नेहा खजूरिया (डब्ल्यूएस-01292ए), 03 अक्टूबर 2006, ईएमई  
 सय्यदा फिरासतुन्नीसा बेगम (डब्ल्यूएस-01294एल), 03 अक्टूबर 2006, सिग्नल

भावना कुमारी (डब्ल्यूएस-01295एन), 03 अक्टूबर 2006, ईएमई  
 दीपाली नेगी (डब्ल्यूएस-01296डब्ल्यू), 03 अक्टूबर 2006, सिग्नल  
 कामिनी पोखरिया (डब्ल्यूएस-01302वाई), 03 अक्टूबर 2006, ईएमई  
 मेधा मोहनन (डब्ल्यूएस-01305एम), 20 अक्टूबर 2006, ईएमई  
 मालविका भारद्वाज (डब्ल्यूएस-01306पी), 03 अक्टूबर 2006, ईएमई  
 शिवानी गर्ग (डब्ल्यूएस-01308ए), 03 अक्टूबर 2006, इंजीनियर  
 सुमुखी मिसरी (डब्ल्यूएस-01309एच), 03 अक्टूबर 2006, ईएमई  
 स्नेहा सूसन इट्टी (डब्ल्यूएस-01316वाई), 20 अक्टूबर 2006, सिग्नल  
 मनदीप कौर मान (डब्ल्यूएस-01318के), 03 अक्टूबर 2006, ईएमई  
 पी एन सिरीशा (डब्ल्यूएस-01319एम), 22 अक्टूबर 2006, सिग्नल  
 जया मेहता (डब्ल्यूएस-01320एफ), 03 अक्टूबर 2006, ईएमई  
 रुचिका (डब्ल्यूएस-01324एक्स), 03 अक्टूबर 2006, ईएमई  
 आरती प्राशर (डब्ल्यूएस-01326एच), 03 अक्टूबर 2006, इंजीनियर  
 परमिंदर कौर (डब्ल्यूएस-01329डब्ल्यू), 03 अक्टूबर 2006, इंजीनियर  
 प्रार्थना सिंह (डब्ल्यूएस-01334एफ), 03 अक्टूबर 2006, ईएमई  
 मेधा गुप्ता (डब्ल्यूएस-01338एक्स), 15 अक्टूबर 2006, ईएमई  
 मेनन सुनिता रामदास (डब्ल्यूएस-01340पी), 03 अक्टूबर 2006, इंजीनियर

दीपिका शर्मा (डब्ल्यूएस-01341एक्स), 22 अक्टूबर 2006, सिग्नल  
 मुंशी नताशा रियाज अहमद (डब्ल्यूएस-01342ए), 03 अक्टूबर 2006, सिग्नल

पूनम शर्मा (डब्ल्यूएस-01345एन), 03 अक्टूबर 2006, सिग्नल  
 प्रज्ञा शुक्ला (डब्ल्यूएस-01347वाई), 03 अक्टूबर 2006, सिग्नल  
 अमृता सिंह (डब्ल्यूएस-01349के), 20 अक्टूबर 2006, इंजीनियर  
 सरन्या एन (डब्ल्यूएस-01351एफ), 22 अक्टूबर 2006, ईएमई

नीलेश चौधरी  
 मेजर  
 सहायक सेना सचिव-8बी

सं. 104, दिनांक 13 फरवरी 2008--भारत की राष्ट्रपति दिनांक 01 जनवरी 2008 से अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में निम्नलिखित नियुक्ति करती हैं :--

अवैतनिक थल सेना एडीसी

आईसी-32703 ले. ज. के एस वेणुगोपाल अ वि से मै (ई एम ई)

अवैतनिक वायु सेना एडीसी

एयर मार्शल पी पी राजकुमार अ वि से मै (12018) एफ (पी)

अवैतनिक वायु सेना एडीसी

एयर मार्शल वाई आर राणे, अ वि से मै, वायु मै (12210) एफ (पी)

बलराम वर्मा

अवर सचिव

## नौसेना मुख्यालय

नेवी ब्रांच

सं. 105, दिनांक 11 फरवरी 2008--राष्ट्रपति, सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सहायक श्री शम्भू राय को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम, 2001 के नियम 7(8) के अन्तर्गत दिनांक 20.12.2007 से 23.02.2008 तक की अवधि तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक या अधिकारी के सेवा निवृत्त होने तक जो भी पहले हो, उस समय तक अनुभाग अधिकारी (वर्ग 'ख' राजपत्रित) के रूप में वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में नियुक्त करते हैं।

ये नियुक्ति पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई है तथा प्रशासकीय कारणों अथवा नियमित पदधारक के उपलब्ध होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द की जा सकती है।

शंकर सिंह

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (ए)

## रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 106, दिनांक 12 फरवरी 2008--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दर्शाए गए दिनांक से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में दो वर्ष की परखावधि पर अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप 'ए') के रूप में वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/- पर :-

नाम	स्थापना	दिनांक
1	2	3
श्री विजय कुमार	टी बी आर एल, चण्डीगढ़	20.08.2002
श्री हितेन्द्र सिंह पवार	--वही--	08.08.2002
कु. प्रीति जैन	--वही--	24.09.2002
कु. हेमलता	--वही--	23.09.2002
श्री एम विजय कुमार	एडीई, बंगलौर	22.08.2005
श्री निखिल शर्मा	एआरडीई, पुणे	12.04.2004
श्री जगदंबा प्रसाद सती	कैब्स, बंगलौर	14.04.2005
श्री अनित टिकी	--वही--	19.08.2005
श्री सुरेश कुमार अंतिल	--वही--	14.04.2005
सुश्री अन्नपूर्णा अग्रवाल	केयर बंगलौर	22.09.2005
श्री शिंदे योगेश शिवाजी	--वही--	14.04.2005

1	2	3
श्री संदीप कुमार शर्मा	केयर बंगलौर	14.04.2005
सुश्री दुर्गेश नंदनी	सफीज, दिल्ली	03.06.2005
श्री एस मोहम्मद हिदायतुल्ला	सीवीआरडीई, चेन्नई	14.04.2005
श्री एन इलईराजा	डीएफआरएल, मैसूर	27.10.2005
श्री उदांती रवि किरण	डीएमआरएल, हैदराबाद	20.06.2005
श्री हिमांशू ओझा	इनमास, दिल्ली	07.06.2005
श्री दीपक कुमार	लास्टेक, दिल्ली	10.06.2005
श्री सुभाष चन्द्र	एनपीओएल, कोच्चि	14.04.2005
श्री विजिगिरी गोपालकृष्ण	आरसीआई, हैदराबाद	12.04.2004

निम्नलिखित वैज्ञानिक 'बी' को उनके नाम के सामने दर्शाये गए दिनांक से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में वैज्ञानिक 'सी' के रूप में वेतनमान रु. 10,000-325-15,200 पर:-

नाम	स्थापना	दिनांक
1	2	3
श्री कौशल के कन्वाडिया	डील, देहरादून	01 जुलाई 2007
श्री त्रिलोक कुमार सैनी	--वही--	01 जुलाई 2007
श्री अतुन वाधवा	--वही--	01 जुलाई 2007
श्री दीपक जस्सल	--वही--	01 जुलाई 2007
श्री विनोद पाल	--वही--	01 जुलाई 2007
मिस सोनाली अग्रवाल	--वही--	01 जुलाई 2007
श्री लोकेन्द्र कुमार सिंह	--वही--	01 जुलाई 2007
श्री कपिल कुमार श्रीवास्तव	--वही--	01 जुलाई 2007
श्री नितिन गुप्ता	--वही--	01 जुलाई 2007
श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता	--वही--	01 जुलाई 2007
श्री पियुश रंजन जायसवाल	--वही--	01 जुलाई 2007
श्री अविक शंकर ब्रह्मचारी	--वही--	01 जुलाई 2007
मिस जसप्रीत कौर	--वही--	01 जुलाई 2007
श्री राबी चौधरी	--वही--	01 जुलाई 2007
मिस सुभाषिनी	--वही--	01 जुलाई 2007
मिस सावित्री देवी	--वही--	01 जुलाई 2007
श्री महावीर प्रसाद	डीएलजे, जोधपुर	01 जुलाई 2007
श्री कमल प्रकाश सिंघल	--वही--	01 जुलाई 2007
श्री दीपक गुप्ता	--वही--	01 जुलाई 2007
श्री अरविन्द परिहार	--वही--	01 जुलाई 2007

1	2	3	4
श्री रोहिताश कुमार	डीएलजे, जोधपुर	01 जुलाई 2007	
ललित पनवार	--वही--	01 जुलाई 2007	
मिस साधना एच कुलकर्णी	हेमरल, पूणे	01 जुलाई 2007	
श्री आर एस कापसे	--वही--	01 जुलाई 2007	
श्री के जी भलेरी	--वही--	01 जुलाई 2007	
डा. वी एस सदावर्ते	--वही--	01 जुलाई 2007	
श्री एन आर बुलाख	--वही--	01 जुलाई 2007	
मिस आर एम राय	--वही--	01 जुलाई 2007	
श्री ए जी नागरकर	--वही--	01 जुलाई 2007	
श्री ए पी सिंह	--वही--	01 जुलाई 2007	
श्री एस एन जवालकर	--वही--	01 जुलाई 2007	
श्री पी टी गोपाले	--वही--	01 जुलाई 2007	
श्री एस एम पंसारे	--वही--	01 जुलाई 2007	
श्री एस आर गोरे	--वही--	01 जुलाई 2007	
मिस एस एच सोनावाने	--वही--	01 जुलाई 2007	
मिस. डीएन मेशराम	--वही--	01 जुलाई 2007	
मिस आर एम वाग	--वही--	01 जुलाई 2007	
डा. जे साजी	--वही--	01 जुलाई 2007	
श्री एम वैकट स्वामी	--वही--	01 जुलाई 2007	
श्री बलेश रोपिया	--वही--	01 जुलाई 2007	
श्री अभय कुमार यादव	--वही--	09 जुलाई 2007	
श्री राकेश कुमार कलाल	--वही--	01 जुलाई 2007	
श्री सुनील जायसवाल	--वही--	01 जुलाई 2007	
श्री जी एस डोम्बे	--वही--	01 जुलाई 2007	
श्री सिताकांता बेहरा	--वही--	01 जुलाई 2007	
श्री पी सी राव	--वही--	01 जुलाई 2007	
श्री एम सुरेश	--वही--	01 जुलाई 2007	
मिस कामाक्षी गुप्ता	--वही--	01 जुलाई 2007	
मिस डायना सालवै	--वही--	01 जुलाई 2007	

पी सारथ  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं. 107, दिनांक 12 फरवरी 2008--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (मध्य प्रदेश : 76) के अधिकारी, श्री अजय आचार्य, जो इस समय रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड के सदस्य वित्त सलाहकार (अधिग्रहण) और रक्षा

मंत्रालय में अपर सचिव हैं, को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आंध्र प्रदेश : 74) के अधिकारी, श्री पी. के. रस्तोगी के स्थान पर 04.12.2007 (अपराह्न) से अगले आदेश होने तक रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग में अपर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड के लिए वर्ष 2001 और 2002 की चयन सूची में उनका नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय सेवा, रक्षा मंत्रालय के निम्नलिखित उप सचिवों (तदर्थ) को इस मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति उनके सामने दी गई तारीख से प्रभावी रहेगी और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 1/7 नवम्बर, 2007 के का. जा. संख्या 4/1/2007-सी एस. I (डी) के अनुसार अगले आदेश होने तक प्रभावी रहेगी।

वर्ष 2001 की चयन ग्रेड सूची के लिए

1. श्री आर के गठवाल, उप सचिव 01.07.2001

वर्ष 2002 की चयन ग्रेड सूची के लिए

1. श्री जोस थॉमस, उप सचिव 01.07.2002

2. श्री वाय. डी. मेहता, उप सचिव 01.07.2002

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड के लिए वर्ष 2001 की चयन सूची में नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय सेवा, रक्षा मंत्रालय के उप सचिव (तदर्थ), श्री जे. एस. भाटिया [जो अधिवर्षिता की आयु होने पर 31 अगस्त, 2007 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो चुके हैं] को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01 नवम्बर, 2007 के का. जा. संख्या 4/1/2007-सी एस.-I (डी) के तहत 01 जुलाई, 2007 से रक्षा मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

एक के देब  
अवर सचिव

सं. 108, दिनांक 12 फरवरी 2008--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) (निजी सचिव) के पद पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप दिनांक 09 अगस्त, 2007 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. जा. संख्या 5/8/2006-सी. एस. II के तहत वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड 'ग' श्री सरताज एस लकड़ा को रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'क और ख' (विलयित) पद पर 6,500-200-10,500/-रुपए के वेतनमान में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं। उनकी नियुक्ति 01 नवम्बर 2007 (पूर्वाह्न) से प्रभावी होकर 31.12.2007 या नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने या अगले आदेश तक इनमें, जो भी पहले हो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :--

(i) तदर्थ नियुक्ति उन्हें ग्रेड में अनिश्चितकाल तक जारी रहने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) में वरिष्ठता का दावा या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(ii) तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) (निजी सचिव) के पद पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप दिनांक 09 अगस्त, 2007 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का. ज्ञा. संख्या 5/8/2006-सी. एस.-II के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्री राजवीर सिंह डबास, आशुलिपिक ग्रेड 'ग' को रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) पद पर 6,500-200-10,500/-रुपए के वेतनमान पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं। उनकी नियुक्ति 13 नवम्बर 2007 (पूर्वाह्न) से प्रभावी होकर 31.12.2007 या नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने या अगले आदेश तक इनमें, जो भी पहले हो निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगी :--

(i) तदर्थ नियुक्ति उन्हें ग्रेड में अनिश्चितकाल तक जारी रहने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) में वरिष्ठता का दावा या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने को कोई अधिकार नहीं होगा।

(ii) तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) (निजी सचिव) के पद पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप दिनांक 01 मार्च, 2007 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का. ज्ञा. संख्या 5/8/2006-सी. एस.-II के तहत कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्री कमल कुमार, आशुलिपिक ग्रेड 'ग' को रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) पद पर 6,500-200-10,500/-रुपए के वेतनमान पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं। उनकी नियुक्ति 07 दिसम्बर 2007 (पूर्वाह्न) से प्रभावी होकर 31.12.2007 या नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने या अगले आदेश तक इनमें, जो भी पहले हो निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगी :--

(i) तदर्थ नियुक्ति उन्हें ग्रेड में अनिश्चितकाल तक जारी रहने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) में वरिष्ठता का दावा या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(ii) तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

एस. के. देब  
अवर सचिव

सं. 109, दिनांक 12 फरवरी 2008--न्याय विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए अनुमोदन के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय सेवा (74) के अधिकारी, श्री शशि भूषण, निदेशक, रक्षा मंत्रालय की सेवाएं केन्द्रीय सचिवालय सेवा (74) की अधिकारी, श्रीमती गार्गी मुखर्जी के स्थान पर 01.11.2007 (अपराह्न) से न्याय विभाग में सौंपी जाती है।

रक्षा मंत्रालय में निदेशक के रूप में अपनी विस्तारित कार्यावधि तथा 47वें एनडीसी कोर्स की समाप्ति पर, भारतीय सांख्यिकीय सेवा (85) की अधिकारी, श्रीमती टी राजेश्वरी, की सेवाएं 30.11.2007 (अपराह्न) से सांख्यिकीय एवं योजना कार्यान्वयन मंत्रालय को सौंपी जाती हैं।

राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (गुजरात : 86) के अधिकारी, श्री संजय प्रसाद का मास्को के भारतीय दूतावास में परामर्शदाता (समन्वय) के पद पर तैनाती के लिए चयन होने के परिणामस्वरूप उनकी सेवाएं 27.12.2007 (अपराह्न) से भारतीय दूतावास, मास्को को सौंपी जाती हैं।

एस. के. देब  
अवर सचिव

#### सेना शाखा

सं. 110, दिनांक 11 फरवरी 2008--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित कप्तानों की परखावधि समाप्त होने पर, उनकी सेवा की, उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से पुष्टि करते हैं :--

#### नियमित सेना

##### अल्पकालीन कमिशन

रैंक एवं नाम, व्यक्तिगत सं., कोर तथा पुष्टि की तिथि

कप्तान विपुल कुमार सिंह (वीएस-1101ए), आरवीसी, 20 जून 2005  
कप्तान दिनेश नागर (वीएस-1102एच), आरवीसी, 20 जून 2005  
कप्तान सुधीश एस नायर (वीएस-1103एल), आरवीसी, 20 जून 2005  
कप्तान जेसजिथ पी (वीएस-1104एन), आरवीसी, 20 जून 2005  
कप्तान दिंसन डेनियल अब्राहिम सी (वीएस-1105डब्ल्यू), आरवीसी, 20 जून 2005  
कप्तान एन बाबू (वीएस-1106वाई), आरवीसी, 20 जून 2005  
कप्तान क्रिश्नेंदू कुंडू (वीएस-1107एफ), आरवीसी, 20 जून 2005  
कप्तान एस सुदीश (वीएस-1108के), आरवीसी, 20 जून 2005  
कप्तान फर्नांडिस रिचमार्क इग्नी (वीएस-1109एम), आरवीसी, 20 जून 2005  
कप्तान नवनीत जोशी (वीएस-1110एफ), आरवीसी, 20 जून 2005  
कप्तान मनीश कुमार (वीएस-1111के), आरवीसी, 20 जून 2005  
कप्तान प्रशान्त त्रिपाठी (वीएस-1112एम), आरवीसी, 20 जून 2005  
कप्तान संजीथ वी एस (वीएस-1113पी), आरवीसी, 20 जून 2005  
कप्तान अनीष एन्टोनी (वीएस-1114एक्स), आरवीसी, 20 जून 2005  
कप्तान दीपक ई वी (वीएस-1115ए), आरवीसी, 20 जून 2005  
कप्तान डोडप्पा हुगड़ (वीएस-1116एच), आरवीसी, 20 जून 2005  
कप्तान राजेन्द्र सिंह यादव (वीएस-1117एल), आरवीसी, 20 जून 2005  
कप्तान मुकेश कुमार पर्वी (वीएस-1118एन), आरवीसी, 20 जून 2005  
कप्तान वी कमलराज (वीएस-1119डब्ल्यू), आरवीसी, 20 जून 2005

कप्तान फॉसटिन जॉय (वीएस-1120एल), आरवीसी, 20 जून 2005  
 कप्तान नोबल टी जॉर्ज (वीएस-1121एन), आरवीसी, 20 जून 2005  
 कप्तान फिलिप वर्धीज़ (वीएस-1122डब्ल्यू), आरवीसी, 20 जून 2005  
 कप्तान राहुल बाबूलाल डांगे (वीएस-1123वाई), आरवीसी, 20 जून 2005

पी. रामा शास्त्री  
 अवर सचिव

सेना शाखा

नियमित सेना

सेना सेवा कोर (पशु परिवहन)

सं. 111, दिनांक 11 फरवरी 2008--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

रिसालदार मेजर (एसएच)

रिसालदार सत्यवीर सिंह (जेसी-680332एल), 09 सितम्बर 2007/01 जून 2007\*

रिसालदार (एसएच)

नायब रिसालदार परमजीत सिंह (जेसी-680765के), 08 सितम्बर 2007/01 मई 2007\*

नायब रिसालदार कामेश्वर मिश्रा (जेसी-680772ए), 10 सितम्बर 2007/01 मई 2007\*

नायब रिसालदार हीरा लाल (जेसी-680783एम), 08 जून 2007/01 मई 2007\*

नायब रिसालदार इन्द्र देव राम (जेसी-680778एफ), 14 सितम्बर 2007/01 मई 2007\*

नायब रिसालदार प्रताप लाल (जेसी-680793डब्ल्यू), 09 जुलाई 2007/01 मई 2007\*

नायब रिसालदार आर पी मिश्रा (जेसी-680804एक्स), 07 सितम्बर 2007/01 जून 2007\*

नायब रिसालदार लाडू राम (जेसी-680807एल), 15 सितम्बर 2007/01 जून 2007\*

नायब रिसालदार भवानी दीन (जेसी-680810एल), 07 सितम्बर 2007/01 जून 2007\*

नायब रिसालदार बिशर्जन ठाकुर (जेसी-680812डब्ल्यू), 04 सितम्बर 2007/01 जून 2007\*

नायब रिसालदार श्याम बिहारी सिंह (जेसी-680813वाई), 10 सितम्बर 2007/01 जून 2007\*

नायब रिसालदार निरंजन शाह (जेसी-680814एफ), 10 सितम्बर 2007/01 जून 2007\*

नायब रिसालदार राम पाल (जेसी-680815डब्ल्यू), 04 सितम्बर 2007/01 जून 2007\*

नायब रिसालदार राम क़्रित राम (जेसी-680817पी), 04 सितम्बर 2007/01 जून 2007\*

नायब रिसालदार बी सी गोगई (जेसी-680821एक्स), 08 सितम्बर 2007/31 जून 2007\*

नायब रिसालदार श्याम करण यादव (जेसी-680826डब्ल्यू), 12 सितम्बर 2007/01 जून 2007\*

नायब रिसालदार जगत चंद्रा बोरा (जेसी-680827वाई), 06 सितम्बर 2007/01 जून 2007\*

\*वेतन और भत्ते पर बिना प्रभाव डाले जयेष्ठता दी जायेगी।

नायब रिसालदार (एसएच)

दफादार के सी महतो (सं. 64379438वाई अब जेसी-680985एन), 18 सितम्बर 2007/01 मई 2007\*

दफादार बसंत प्रसाद (सं. 6476087एक्स अब जेसी-680986डब्ल्यू), 03 सितम्बर 2007/01 मई 2007\*

दफादार आन सिंह (सं. 6476096ए अब जेसी-680987वाई), 24 सितम्बर 2007/01 मई 2007\*

दफादार मंगत सिंह (सं. 3383225ए अब जेसी-680992के), 11 सितम्बर 2007/01 मई 2007\*

दफादार चत्तर सिंह (सं. 3382947ए अब जेसी 681003एच), 17 सितम्बर 2007/01 जून 2007\*

दफादार लखविन्द्र सिंह (सं. 3383508एफ अब जेसी 681004एल), 10 सितम्बर 2007/01 जून 2007\*

दफादार आर पी यादव (सं. 6476195एच अब जेसी 681006डब्ल्यू), 09 सितम्बर 2007/01 जून 2007\*

दफादार बी केशवन (सं. 6471958के अब जेसी 681008एफ), 07 सितम्बर 2007/01 जून 2007\*

दफादार एन एन रंगनाथ (सं. 6472773पी अब जेसी 681009के), 14 सितम्बर 2007/01 जून 2007\*

दफादार दिवाकर लाल (सं. 6476020ए अब जेसी 681010वाई), 12 सितम्बर 2007/01 जून 2007\*

दफादार झल्लारु राम (सं. 6476199वाई अब जेसी 681011एफ), 12 सितम्बर 2007/01 जून 2007\*

दफादार राम समुझ (सं. 6476233एन अब जेसी 681013एम), 11 सितम्बर 2007/01 जून 2007\*

दफादार सुरेन्द्रा सिंह (सं. 6476240के अब जेसी 681015एक्स),  
21 सितम्बर 2007/01 जून 2007\*

दफादार नायन बिस्वास (सं. 6476217डब्ल्यू अब जेसी 681018एल),  
12 सितम्बर 2007/01 जून 2007\*

दफादार श्याम सुन्दर पौल (सं. 6472436ए अब जेसी 681021एल),  
01 अक्टूबर 2007/23 जून 2007\*

दफादार बी के यादव (सं. 6472711पी अब जेसी 681023डब्ल्यू),  
01 अक्टूबर 2007/23 जून 2007\*

दफादार महदेव (सं. 6472740के अब जेसी 681024वाई),  
12 सितम्बर 2007/23 जून 2007\*

दफादार विजयन टी के (सं. 6476108के अब जेसी 681025एफ),  
18 सितम्बर 2007/23 जून 2007\*

दफादार कुलबीर सिंह (सं. 3383453एच अब जेसी 681026के),  
08 सितम्बर 2007/23 जून 2007\*

दफादार मारकंडे ठाकुर (सं. 6476300डब्ल्यू अब जेसी 681031पी),  
22 सितम्बर 2007/01 जुलाई 2007\*

\*वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दी जायेगी।

पी. रामा शास्त्री  
अवर सचिव

-----

सं. 112, दिनांक 11 फरवरी 2008--राष्ट्रपति महोदय, खुश होकर  
निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

गार्डस ब्रिगेड

सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार (क्लर्क) प्रधुमन मिश्रा (जेसी-402665एच), 03 दिसम्बर  
2007\*

\*सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार चिंता मणि (जेसी-403457ए), 01 नवम्बर 2007\*

\*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
17 दिसम्बर 2006 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार पुलिन चंद्र डेका (जेसी-403386के), 09 सितम्बर  
2007\*

\*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2007 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-403416डब्ल्यू), 17 जुलाई 2007\*

\*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जुलाई 2007 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार आलोक कुमार भट्टाचार्या (जेसी-403456एक्स),  
07 अक्टूबर 2007\*

\*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार दिलीप कुमार (जेसी-403829ए), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार अंग पाल (जेसी-403681एम), 29 सितम्बर 2007\*

\*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
03 सितम्बर 2007 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार राधाकृष्णन वी (जेसी-403431एल), 10 सितम्बर  
2007

नायब सूबेदार रामेश्वर लाल जाट (जेसी-403715पी), 08 अक्टूबर  
2007\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जेसी-403611एन), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार नरेंद्र सिंह (जेसी-403608एन), 15 नवम्बर 2007\*

\*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार विजयन के (जेसी-403538ए), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार भरत प्रसाद ओझा (जेसी-403470के), 01 अक्टूबर  
2007

नायब सूबेदार संतोश कुमार के एम (जेसी-403628एफ),  
01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार सूरज पाल (जेसी-403519पी), 30 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार बजरंग सिंह (जेसी-403542एच), 30 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार लक्ष्मी कांत जाना (जेसी-403353वाई), 15 नवम्बर  
2007\*

\*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार ताज मोहम्मद (जेसी-403565के), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार नरपत सिंह (जेसी-403566एम), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार राज कुमार (जेसी-403210वाई), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार आनंद बल्लब (जेसी-403464डब्ल्यू), 12 नवम्बर  
2007\*

\*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार श्याम सिंह (जेसी-403465वाई), 05 नवम्बर 2007\*

\*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार बेधन च नाथ (जेसी-403482वाई), 05 नवम्बर 2007\*

\*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार अहीर लाला भाई मेवा भाई (जेसी-403709एफ), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार कुमार पाल सिंह (जेसी-403718एच), 01 नवम्बर 2007

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) जिले सिंह (जेसी-403469पी), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (क्लर्क) कैलाश चंद (जेसी-403478डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (क्लर्क) रतन सिंह (जेसी-403484के), 01 दिसम्बर 2007

सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में

नायब सूबेदार (एसकेटी) राम किशन सिंह (जेसी-403368एफ), 01 अगस्त 2007

जे. राय चौधरी  
अवर सचिव

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार एस के मोरटजा (सं. 15613110एक्स अब जेसी-404136पी), 20 नवम्बर 2007\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 जुलाई 2006 से दी जायेगी।

हवलदार संतोष सिंह तोमर (सं. 13690720एक्स अब जेसी-404137एक्स), 05 अगस्त 2007

हवलदार लंकेश्वर राय (सं. 13685486एच अब जेसी-404143एल), 30 अक्टूबर 2007\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 अगस्त 2007 से दी जायेगी।

हवलदार सूरजमल गुजर (सं. 13689803डब्ल्यू अब जेसी-404144एन), 24 अगस्त 2007

हवलदार श्रीकांत हंचिनामणि (सं. 13690574एच अब जेसी-404152एम), 22 अक्टूबर 2007\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 सितम्बर 2007 से दी जायेगी।

हवलदार जोगिंद्र कुमार (सं. 13687972वाई अब जेसी-404155ए), 17 नवम्बर 2007\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अगस्त 2007 से दी जायेगी।

हवलदार प्यारे लाल (सं. 13688186एम अब जेसी-404156एच), 21 अक्टूबर 2007\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी।

हवलदार कृष्णा नंद मिश्रा (सं. 13688521एल अब जेसी-404157एल), 22 अक्टूबर 2007\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी।

हवलदार शीश राम (सं. 13691269एच अब जेसी-404158एन), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 13689218डब्ल्यू अब जेसी-404159डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2007

हवलदार मोहिंद्र पाल गुप्ता (सं. 13690511ए अब जेसी-404160एल), 01 नवम्बर 2007

हवलदार सुमेर सिंह चाहर (सं. 13690517एफ अब जेसी-404161एन), 01 नवम्बर 2007

हवलदार लाल बहादुर सिंह (सं. 13690791वाई अब जेसी-404164एफ), 01 सितम्बर 2007

हवलदार बदलू राम (सं. 13689117एच अब जेसी-404165के), 03 सितम्बर 2007

हवलदार बालाचंद्रन डी (सं. 13690884एन अब जेसी-404166एम), 26 सितम्बर 2007

हवलदार महेंद्र कुमार (सं. 13690897एल अब जेसी-404167पी), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार कल्याण सिंह बिका (सं. 13689153एन अब जेसी-404168एक्स), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार जिले सिंह (सं. 13689215एच अब जेसी-404169ए), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार हरि सिंह गुर्जर (सं. 13689337एम अब जेसी-404170पी), 01 नवम्बर 2007\*

हवलदार महेश चंद्र (सं. 13689503पी अब जेसी-404171एक्स), 15 दिसम्बर 2007\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी।

हवलदार सुरजीत कुमार (सं. 13689591डब्ल्यू अब जेसी-404172ए), 02 नवम्बर 2007



हवलदार निर्मल सिंह (सं. 13690022पी अब जेसी-404173एच),  
02 नवम्बर 2007

हवलदार हरि कृष्ण (सं. 13687933ए अब जेसी-404174एल),  
05 नवम्बर 2007\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी।

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 13688052एन अब जेसी-404175एन),  
05 नवम्बर 2007\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी।

हवलदार मदन मोहन पाण्डेय (सं. 13688078एच अब जेसी-  
404176डब्ल्यू), 05 नवम्बर 2007\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी।

हवलदार श्री संतोष कुमार शर्मा (सं. 13688624के अब जेसी-  
404177वाई), 14 नवम्बर 2007

हवलदार गंगी सयाना (सं. 13689157के अब जेसी-404178एफ),  
23 नवम्बर 2007\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 04 नवम्बर 2007 से दी जायेगी।

हवलदार सर्वजीत (सं. 13688548एच अब जेसी-404182के),  
01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) जया चंद्रन पी (सं. 13692625के अब  
जेसी-404179के), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार (क्लर्क) श्याम लाल (सं. 13692629ए अब  
जेसी-404180वाई), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार (क्लर्क) राम निवास (सं. 13683868एन अब  
जेसी-404181एफ), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में

हवलदार (एसकेटी) रथीश कुमार एन (सं. 13688742एक्स अब  
जेसी-404163वाई), 01 अगस्त 2007

मैकानाइज्ड इन्फेन्ट्री रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) त्रिवेणी उपाध्याय (सं. 14912263एक्स अब  
जेसी-420791एक्स), 01 अक्टूबर 2007\*

\*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2007 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) कुलदीप सिंह (सं. 14912270एन अब  
जेसी-420792ए), 17 अक्टूबर 2007\*

\*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) सतपाल (सं. 14912273एफ अब  
जेसी-420793एच), 18 अक्टूबर 2007\*

\*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जाती है।)

हवलदार (लिपिक) आशा राम (सं. 14912337एफ अब  
जेसी-420794एल), 01 दिसम्बर 2007

जे राय चौधरी  
अवर सचिव

#### रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 113, दिनांक 13 फरवरी 2008--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड पर  
दिनांक 01 सितम्बर 2007 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं।

क्र. सं.	नाम	प्रयोगशाला स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति	पदोन्नति ग्रेड का वेतनमान
1	2	3	4	5	6
	श्री/श्रीमती				
1.	वी कोटेस्वरा राव	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
2.	अस्मा बेगम	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
3.	आर सेल्वानायगी	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
4.	वी वेन्कटेशु चेट्टी	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
5.	डी सुगुमारण	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
6.	टी मनीवन्नन	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
7.	पी इलानोवन	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'वी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
8.	सी पार्थासार्थी	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
9.	एस एच लीलावती	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'वी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200

1	2	3	4	5	6
10.	एम मोहन	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
11.	एस शिवा नारायण	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
12.	एस लिंगप्पा	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
13.	पी शंमुगम	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
14.	एम पी कुमार	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
15.	एम बी रमेश	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
16.	लक्ष्मीकांथा राजू	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
17.	के सदासिवाचार	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
18.	के सत्यनारायण	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
19.	एस. श्रीदेवी	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
20.	के शंकर नाईक	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
21.	शंकर	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
22.	जाव मूर्ध	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
23.	एस लोकेस्वरा राव	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
24.	के. एन. युवराज	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
25.	के प्रभाकरन	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
26.	एम शिवानाथन	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
27.	सी रविचन्द्रन	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
28.	एस एल नरसिंहन	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
29.	जे. भूपति	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
30.	एम. अहमद नाशा	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
31.	आर पनीट सेल्वम	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
32.	एम. महेन्द्र बाबू	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
33.	ए तमिल मनी	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
34.	के. जी. श्रीनिवासन	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
35.	एस सुन्दर राज	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
36.	के. वी. नागराज	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
37.	एस. आर. मोहन	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
38.	जी रामामिरुथम	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
	एन. एस. पुरुषोत्तम	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
	के. शर्मा	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
		जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
	* दास	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500

1	2	3	4	5	6
43.	श्रीकांथ हेगड़े	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
44.	इम्तियाज पाशा	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
45.	डी. मेथ्यू	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
46.	बी वी बाविकार	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
47.	डी आर कोल्हाटकर	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
48.	राईचेल मथाई	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
49.	डी एम कदम	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
50.	पी एल अंग्रे	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
51.	एस सी भरमगुदे	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
52.	डी. बी. ईगले	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
53.	वी. ए. नेरकार	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
54.	एन पी कुमभारे	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
55.	ए बी सूर्यवंशी	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
56.	आई एस कराडकर	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
57.	एम जे ककाडे	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
58.	एस. एन. करन्जकर	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
59.	पी एस गवारे	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
60.	के. जे. माने	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
61.	एस. एन. चवान	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 10,000-325-15,200
62.	एस. एच. अंबारे	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
63.	दास नायर	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
64.	ए एस नवासे	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
65.	पी. के. केदारे	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
66.	ए. के. थेकने	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
67.	वी. बी. पराथी	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
68.	ए. वी. वाग	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
69.	एस. बी. अनेकार	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
70.	ए. राममूर्ति	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
71.	वी. खाडके	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
72.	जेद बी सरकार	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
73.	बी. एस. पूनेकार	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
74.	पी. एस. मेष्ट्री	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
75.	आर. एस. पाटिल	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500

1	2	3	4	5	6
76.	वी. एम. गाईक्वाद	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
77.	एम. बी. जोरकर	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
78.	यू. डी. धूमाल	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
79.	वी. के. देशपांडे	वि आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'वी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
80.	डी. वी. जोशी	वि आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'वी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
81.	पी. बी. सालुंके	वि आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'वी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
82.	बी. बी. भगत	वि आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
83.	एस. एस. मरेशिया	वि आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
84.	एन. आर. सरोदे	वि आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
85.	साम शेख	वि आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
86.	दिनेश कुमार	वि आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
87.	एस एस दहिफले	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
88.	आर. एम. सोनावने	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
89.	एस. एन. मंधरे	ए आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड पर दिनांक 01 सितम्बर 2007 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं।

क्र. सं.	नाम	प्रयोगशाला स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति	पदोन्नति ग्रेड का वेतनमान
1	2	3	4	5	6
श्री/श्रीमती					
1.	एन मंजुनाथा	जी टी आर ई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
2.	एम. विश्वनाथ	जी टी आर ई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
3.	वी. रंगादासन	जी टी आर ई	तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी	रु. 7,450-225-11,500
4.	वी. एस. ऊनस	जी टी आर ई	तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी	रु. 7,450-225-11,500
5.	ए. वाई. गायक्वाड	वि आर डी ई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
6.	आर. एच. ताथे	वि आर डी ई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
7.	एम डी जाधव	वि आर डी ई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
8.	एम. लुटे	वि आर डी ई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
9.	एन. बी. पाटिल	वि आर डी ई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
10.	एच. आई. नोजार	वि आर डी ई	तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी	रु. 7,450-225-11,500
11.	जी हरी राज	डी एल आर एल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
12.	एम. वी. राजेश्वरी	डी एल आर एल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
13.	के. नागेश्वर राव	डी एल आर एल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
14.	के. आर. रामा सुब्बा राव	एल आर डी ई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500

1	2	3	4	5	6
15.	एन. दिनेश	एल आर डी ई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
16.	ए. महालिंगम	एल आर डी ई	तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी	रु. 7,450-225-11,500
17.	आर. एस. एन. मूर्ति	एल आर डी ई	तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी	रु. 7,450-225-11,500
18.	एन. डी. सावंत	ए आर डी ई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
19.	ए. जे. तेंगले	ए आर डी ई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
20.	जे. वाई गुडवे	ए आर डी ई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
21.	के. के. शिंदे	ए आर डी ई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
22.	टी. डी. संगमनेरकर	ए आर डी ई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
23.	एस.पी. खानापुरे	ए आर डी ई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
24.	एस. डी. शर्मा	ए आर डी ई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
25.	सी. एम. लोंकर	ए आर डी ई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
26.	एस. एम. कुलकर्णी	ए आर डी ई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
27.	सुहास ए. भट्टमरेकर	ए आर डी ई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
28.	वी. के. पिल्ले	ए आर डी ई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
29.	एम. बी. बारशिकर	ए आर डी ई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500

अभिनवजीत ओझा  
उप निदेशक (कार्मिक)

## सेना शाखा

सं. 114, दिनांक 13 फरवरी 2008--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर

आई सी नं.	नाम, आर्म
1	2
65151	परवीन कुमार, इन्फैन्ट्री
65152	सिद्धार्थ पंत, मैक इन्फैन्ट्री
65154	अमरजीत सिंह, इन्फैन्ट्री
65155	मनदीप सिंह, आर्टी
65156	प्रत्युष गौतम, ए ओ सी
65157	समीर तमहांकर, आर्टी
65158	धर्मवीर सिंह, ए सी
65159	शैलेन्द्र सिंह नेगी, इन्फैन्ट्री
65160	जीतेन्द्र वी नायक, ए एस सी

1	2
65161	अनूप चक्रावर्ती, ईन्ट
65162	अभिषेक शर्मा, आर्टी
65164	लोकेश जोशी, इन्फैन्ट्री
65165	रोहित वर्मा, आर्टी
65166	जयन्त सिंह, इन्फैन्ट्री
65167	नुनम्लेपम बुद्धिमानिया सिंह, इन्फैन्ट्री
65168	सुधीर परमार, इन्फैन्ट्री
65169	विजय अनियाल, इन्फैन्ट्री
65170	राहुल सेक्यूरिया, ए ओ सी
65174	अविनाश कुमार, इन्फैन्ट्री
65175	कुणाल भटनागर, ए ओ सी
65176	अभिजित नायर, आर्टी
65177	नितिन कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
65178	अर्जुन सिंह, इन्फैन्ट्री

1	2
65179	राहुल सिंह, इन्जीनियर्स
65180	प्रीत सिंह, इन्जीनियर्स
65181	अतुल राज सिंह, ए एस सी
65182	राहुल बडोला, ए ए डी
65183	निखिल पेन्धारकर, ए सी
65184	प्रभु रामदास वामन, इन्फैन्ट्री
65185	जयपाल सिंह, इन्जीनियर्स
65186	पविन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री
65188	आनन्द झा, इन्फैन्ट्री
65189	तरुण कुमार, आर्टी
65190	धर्मवीर जामवाल, इन्फैन्ट्री
65191	राहुल पंवार, इन्फैन्ट्री
65192	हरमिन्दर सिंह, आर्टी
65193	राजेश कुमार झिंगिया, मैक इन्फैन्ट्री
65194	आर के विक्रम, इन्फैन्ट्री
65195	किरन कुमार गिरि, इन्जीनियर्स
65196	कलेश के रामन, इन्जीनियर्स
65197	मुकेश, ए एस सी
65198	अमनप्रीत सिंह, आर्टी
65199	ईश्वर सिंह दहिया, आर्टी
65200	राजिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री
65201	डेनिस एण्ड्र्यू जॉनसन, इन्जीनियर्स
65202	पंकज चौहान, आर्टी
65204	अनिल कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री
65207	शिवेन्द्र पाल सिंह रावत, आर्टी
65208	रमेश डाबर, इन्फैन्ट्री
65209	परमवीर सिंह जामवाल, इन्फैन्ट्री
65210	रण सिंह, इन्फैन्ट्री
65211	अमित भारद्वाज, इन्फैन्ट्री
65214	रिपन जैन, ए ओ सी
65215	मौलिक चन्दर, आर्टी
65216	पुजारी धीरज एस, मैक इन्फैन्ट्री
65218	निखिल कुमार, ए ओ सी
65219	शैलेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
65220	जीवन बी, इन्फैन्ट्री
65221	अहमेर इकबाल, आर्टी
65222	सूरज प्रकाश दाश, आर्टी

1	2
65223	शिबू एस एल, इन्फैन्ट्री
65225	सुधांशु गुप्ता, ए एस सी
65226	सीतेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
65227	हरपाल सिंह, सिग्नल्स
65228	धीरेन्द्र सिंह, आर्टी
65229	रोहित गांगुली, इन्फैन्ट्री
65230	गोपाल सोनी, आर्टी
65231	सुशांत कुमार झा, इन्जीनियर्स
65232	प्रशांत सिंह, आर्टी
65233	आनन्द कुमार, इन्फैन्ट्री
65234	अकुरं महाराज सिंह, ए सी
65235	आदित्य कुमार देवरानी, आर्टी
65236	भूपिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री
65238	हेसनम प्रीतम सिंह, आर्टी
65239	जोबी जे थामस, ए एस सी
65240	कुमुद मैनी, इन्फैन्ट्री
65241	पी एस प्रसन्ना, ए सी
65242	अमित जॉन कोटिन्हो, आर्टी
65243	रामेश्वर नाथ झा, ए ए डी
65244	आशीश पसबोला, इन्फैन्ट्री
65245	इमरान अहमद सिद्धिकी, इन्फैन्ट्री
65246	बलवान सिंह, इन्फैन्ट्री
65247	राहुल पाण्डे, ए एस सी
65248	विवेक सिंह, ए ए डी
65249	मुकुंद गुरूराज, इन्फैन्ट्री
65250	त्रिभुवन पन्त, इन्फैन्ट्री
65252	करन बीर साही, आर्टी
65253	अम्बर राज, आर्टी
65254	चारूल शर्मा, ए सी
65255	पियुष कृष्णा, आर्टी
65256	डी कोहली, इन्फैन्ट्री
65257	युवराज सिंह राठौर, इन्ट
65258	रोहित धूल, ए ए डी
65259	शैलेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री

- 65260 जसविन्दर पाल सिंह, आर्टी  
 65263 कनिष्का, आर्टी  
 65264 वी सिद्धार्थ, इन्फैन्ट्री  
 65265 गौरव थापा, इन्फैन्ट्री  
 65266 प्रातीम बैनर्जी, ए ओ सी  
 65267 हर्ष गुसाई, मैक इन्फैन्ट्री

--3 नवम्बर 2007--

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (डब्ल्यू एस)  
 कप्तान से मेजर

डब्ल्यू एस न., नाम, आर्म, पदोन्नति के लिए संशोधित वरियता तिथि, कोर्स संख्या व मेजर दिनांक से

- (00483), मनमीत भुसारी, ए ओ सी, 2 सितम्बर, 2001, 16 (नान टेक), 2 सितम्बर, 2007  
 (00484), ज्योति बिष्ट, ईन्ट, 2 सितम्बर, 2001, 16 (नान टेक), 2 सितम्बर, 2007  
 (00489), शिवानी नेगी, ए एस सी 2 सितम्बर, 2001, 16 (नान टेक), 2 सितम्बर, 2007  
 (00494), अनुसिंह रंधावा, ए ओ सी, 2 सितम्बर, 2001, 16 (नान टेक), 2 सितम्बर, 2007  
 (00497), उम्मीद थापा, ए ओ सी, 2 सितम्बर, 2001, 16 (नान टेक), 2 सितम्बर, 2007  
 (00501), कल्याणी देशपाण्डे, इन्जीनियर्स, 2 सितम्बर, 2001, 16 (नान टेक), 2 सितम्बर, 2007  
 (00502), ममता सिंह, ए एस सी, 2 सितम्बर, 2001, 16 (नान टेक), 2 सितम्बर, 2007  
 (00510), कोमल सिंह, ई एम ई, 2 सितम्बर, 2001, 16 (नान टेक), 2 सितम्बर, 2007  
 (00517), कृति त्रिपाठी, ए एस सी, 2 सितम्बर, 2001, 16 (नान टेक), 2 सितम्बर, 2007  
 (00519), जी वी अनिता, ए एस सी, 2 सितम्बर, 2001, 16 (नान टेक), 2 सितम्बर, 2007  
 (00520), भूपिन्दर बलागन, ए ओ सी, 2 सितम्बर, 2001, 16 (नान टेक), 2 सितम्बर, 2007  
 (00524), दिव्या सिंह, ए ओ सी, 2 सितम्बर, 2001, 16 (नान टेक), 2 सितम्बर, 2007  
 (00525), मन मोहिन्दर कौर, ए ओ सी, 2 सितम्बर, 2001, 16 (नान टेक), 2 सितम्बर, 2007  
 (00528), मीनाक्षी अग्रवाल, ए ओ सी, 2 सितम्बर, 2001, 16 (नान टेक), 2 सितम्बर, 2007

- (00531), डोली तिवारी, ए एस सी, 2 सितम्बर, 2001, 16 (नान टेक), 2 सितम्बर, 2007  
 (00533), बिन्दु नायर, इन्जीनियर्स, 2 सितम्बर, 2001, 16 (नान टेक), 2 सितम्बर, 2007  
 (00535), ब्रह्म शक्ति हुडा, ए एस सी, 2 सितम्बर, 2001, 16 (नान टेक), 2 सितम्बर, 2007  
 (00536), सोनिका अरोड़ा, ए ओ सी, 2 सितम्बर, 2001, 16 (नान टेक), 2 सितम्बर, 2007  
 (00541), रोली चौहान, ए ओ सी, 2 सितम्बर, 2001, 16 (नान टेक), 2 सितम्बर, 2007  
 (00542), सोनाली त्यागी, ए ओ सी, 2 सितम्बर, 2001, 16 (नान टेक), 2 सितम्बर, 2007  
 (00543), राखी कोनहेर, ए एस सी, 2 सितम्बर, 2001, 16 (नान टेक), 2 सितम्बर, 2007  
 (00562), करुण थपलियाल, ए ई सी, 3 सितम्बर, 2001, 17 (नान टेक), 3 सितम्बर, 2007  
 (00589), गुरप्रीत कौर गिल, ए ई सी, 3 सितम्बर, 2001, 17 (नान टेक), 3 सितम्बर, 2007  
 (00590), दिपाली सिन्हा, ए ई सी, 3 सितम्बर, 2001, 17 (नान टेक), 3 सितम्बर, 2007  
 (00737), हन्ना पौलोस, सिग्नल्स, 8 सितम्बर, 2001, 21 (टेक), 8 सितम्बर, 2007  
 (00738), अमनदीप कौर, सिग्नल्स, 8 सितम्बर, 2001, 21 (टेक), 8 सितम्बर, 2007  
 (00746), फ्रांसिस चेरियन कोरालिनराज जोसेफ, सिग्नल्स, 8 सितम्बर, 2001, 21 (टेक), 8 सितम्बर, 2007  
 (00748), डी कोस्य इल्सी, इन्जीनियर्स, 8 सितम्बर, 2001, 21 (टेक), 8 सितम्बर, 2007  
 (00754), दीपिका मल्होत्रा, ई एम ई, 8 सितम्बर, 2001, 21 (टेक), 8 सितम्बर, 2007  
 (00756), सावंत धन श्रीसम्पत राव, इन्जीनियर्स, 8 सितम्बर, 2001, 21 (टेक), 8 सितम्बर, 2007  
 (00758), पांडे नंदिनी रामाचन्द्रा, ई एम ई, 8 सितम्बर, 2001, 21 (टेक), 8 सितम्बर, 2007  
 (00781), अर्चना गुसाई, सिग्नल्स, 8 सितम्बर, 2001, 21 (टेक), 8 सितम्बर, 2007  
 (00782), अंजू तिवारी, सिग्नल्स, 8 सितम्बर, 2001, 21 (टेक), 8 सितम्बर, 2007  
 (00785), सुर भो शर्मा, इन्जीनियर्स, 8 सितम्बर, 2001, 21 (टेक), 8 सितम्बर, 2007

जसवन्त सिंह  
 संयुक्त निदेशक  
 एम एस 8 सी

सं. 115, दिनांक 14 फरवरी 2008.--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करती हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर जनरल के मूल रैंक में

रैंक, नाम, आईसी, आर्म और मेजर जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि

ब्रिगे. आर के कालिया एस एम (आईसी-25119), आर्टी, 06 जुलाई 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 नवम्बर 2006 से दी जाएगी।

ब्रिगे. आर के अरोड़ा (आईसी-25806), पंजाब, 06 जुलाई 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 नवम्बर 2006 से दी जाएगी।

ब्रिगे. लाल ए के (आईसी-27022), पंजाब, 006 जुलाई 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 नवम्बर 2006 से दी जाएगी।

ब्रिगे. मैण्डारकर यू एम (आईसी-32731), 66 ए आर, 06 जुलाई 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 नवम्बर 2006 से दी जाएगी।

ब्रिगे. एस पी चौधरी (आईसी-27208), ईएमई, 31 मई 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 नवम्बर 2006 से दी जाएगी।

ब्रिगे. ई जैकब कोचेकन (आईसी-33015), 5 जीआर, 31 मई 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 नवम्बर 2006 से दी जाएगी।

ब्रिगे. राम प्रताप (आईसी-32844), एएडी, 31 मई 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 नवम्बर 2006 से दी जाएगी।

ब्रिगे. एस एन शाह (आईसी-27601), इंजि., 23 फरवरी 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 नवम्बर 2006 से दी जाएगी।

ब्रिगे. ए के सिंह, वीएसएम (आईसी-27606), 7 कैव, 23 फरवरी 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 नवम्बर 2006 से दी जाएगी।

ब्रिगे. आर के हुड्डा (आईसी-27608), गार्ड्स, 23 फरवरी 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 नवम्बर 2006 से दी जाएगी।

ब्रिगे. के सुरेन्द्र नाथ (आईसी-27616), मैक इन्फैं., 23 फरवरी 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 नवम्बर 2006 से दी जाएगी।

ब्रिगे. हरदेव सिंह (आईसी-27619), मैक इन्फैं., 23 फरवरी 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 नवम्बर 2006 से दी जाएगी।

ब्रिगे. ए के एस शिवरेन (आईसी-27628), 9 हार्स, 23 फरवरी 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 नवम्बर 2006 से दी जाएगी।

ब्रिगे. डी राजन (आईसी-27673), आर्टी, 23 फरवरी 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 नवम्बर 2006 से दी जाएगी।

ब्रिगे. एन सी मारवाह (आईसी-27679), कुमाउँ, 23 फरवरी 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 फरवरी 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. डी. एस. सिद्धू (आईसी-27701), 17 हार्स, 23 फरवरी 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 फरवरी 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. ए के मलिक, वी एस एम (आईसी-27708), जैक लाई, 23 फरवरी 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 फरवरी 2006 से दी जाएगी।

ब्रिगे. प्रदीप भल्ला (आईसी-27767), एओसी, 23 फरवरी 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23 फरवरी 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. जगवीर सिंह कुण्डू (आईसी-27778), आर्टी, 23 फरवरी 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23 फरवरी 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. पी जी कामथ (आईसी-27782), मद्रास, 23 फरवरी 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 मार्च 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. सी एम शर्मा (आईसी-33085), आर्टी, 23 फरवरी 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 मई 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. जी एस माल्ही (आईसी-27956), 7 कैव, 23 फरवरी 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19 मई 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. के पी एस सलोत्रा (आईसी-27962), 11 जीआर, 23 फरवरी 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19 मई 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. एस पी सिंह (आईसी-27967), आर्टी (जीसी), 23 फरवरी 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19 मई 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. एस के भारद्वाज (आईसी-27968), ग्रेन, 23 फरवरी 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19 मई 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. राजेश पन्त, वीएसएम (आईसी-27969), सिग्स, 01 सितम्बर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19 मई 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. संजीव लूम्बा (आईसी-27971), 63 कैव, 01 सितम्बर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19 मई 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. ज्ञान भूषण (आईसी-27972), महार, 01 सितम्बर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19 मई 2007 से दी जाएगी।



ब्रिगे. जे एस बाजवा (आईसी-27979), कुमाउँ, 01 सितम्बर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. सिब्बल मुनीश (आईसी-27990), राज रिफ., 01 जुलाई 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. पी एस मल्ला (आईसी-27994), 64 कैम, 01 जुलाई 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. डी एस ठाकुर (आईसी-30010), एमएलआई, 01 अगस्त 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. अनिल चैत (आईसी-30016), 73 जीआर, 01 अगस्त 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. के एस सेठी (आईसी-30048), पंजाब, 14 अगस्त 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जून 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. राजिन्दर सिंह (आईसी-30051), बिहार, 01 सितम्बर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जून 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. बी एस दौलता (आईसी-30052), डोगरा, 01 सितम्बर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जून 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. आर के कालरा (आईसी-30053), एएडी, 01 सितम्बर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जून 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. एस पी तनवर (आईसी-30068), आर्टी, 01 सितम्बर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जून 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. एस सी नायर (आईसी-30076), राजपूत, 01 सितम्बर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जून 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. जे डी एस रावत एस एम (आईसी-30085), इन्ट, 01 सितम्बर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जून 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. नरेन्द्र सिंह एसएम, वीएसएम(आईसी-30089), एमएलआई, 01 अक्टूबर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जून 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. वी के तिवारी (आईसी-30109), आर्टी, 01 अक्टूबर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जून 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. ए मुखर्जी (आईसी-30118), आर्टी, 01 अक्टूबर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जून 2007 से दी जाएगी।

एन के फूकन  
एएमएस/एमएस (एम्स)

सं 116, दिनांक 14 फरवरी 2008.—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं।

नियमित सेना

आसूचना कोर

नायब सूबेदार इन्ट (जीडी) के पद पर

हवलदार/इन्ट जीडी ओम प्रकाश (सं. 7430580एन अब जेसी-810920एम), 01 जून 2005

हवलदार/इन्ट जीडी बगेश कुमार (सं. 7430587एन अब जेसी-810921पी), 01 जून 2005

हवलदार/इन्ट जीडी हरूदानन्दा पोथल (सं. 7430589वाई अब जेसी-810924एच), 01 जुलाई 2005

हवलदार/इन्ट जीडी चौधरी यशपाल सिंह (सं. 7430520पी अब जेसी-810925एल), 01 जुलाई 2005

हवलदार/इन्ट जीडी साबु एम एम (सं. 7430608वाई अब जेसी-810926एन), 01 अगस्त 2005

हवलदार/इन्ट जीडी मुरलीधरन आर (सं. 7430609एफ अब जेसी-810927डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005

हवलदार/इन्ट जीडी थोमस जोर्ज (सं. 7430610डब्ल्यू अब जेसी-810928वाई), 01 अगस्त 2005

हवलदार/इन्ट जीडी रमेश चन्द जोशी (सं. 7430594के अब जेसी-810929एफ), 01 अगस्त 2005

हवलदार/इन्ट जीडी गोपा कुमार सी आर (सं. 7430611वाई अब जेसी-810930डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी त्रिवेनी चन्द्र (सं. 7430596पी अब जेसी-810931वाई), 01 सितम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी सयद अफजल अली (सं. 2676738पी अब जेसी-810933के), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी हरविन्द्र सिंह (सं. 2476759एफ अब जेसी-810934एम), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी पुरण चन्द्र (सं. 7430597एक्स अब जेसी-810935पी), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी शिव शंकर डे (सं. 6378835एल अब जेसी-810936एक्स), 1 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी पाल्वे अम्बादास हरि भाऊ (सं. 7430584ए अब जेसी-810937ए), 01 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी पवन कुमार चौहान (सं. 7430598ए अब जेसी-810938एच), 01 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी संजय कुमार सोनखुटिया (सं. 7430612ए अब जेसी-810940ए), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी जितेन्द्र कुमार मगेंद्रा (सं. 7430615पी अब जेसी-810941एच), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी रामनारायण सैनी (सं. 7430617ए अब जेसी-810942एल), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी प्रयाग सिंह राजपूत (सं. 7430618एच अब जेसी-810943एन), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी एम जेसु माईकल एलेक्जेन्डर (सं. 7430633एक्स अब जेसी-810944डब्ल्यू), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी सुभाष चन्द्र प्रधान (सं. 7430635एच अब जेसी-810945वाई), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी राकेश चन्द्र (सं. 7430488एल अब जेसी-810946एफ), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी मुन्नगी सिवा रेड्डी (सं. 7430539एच अब जेसी-810947के), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी जी गोपी (सं. 7430636एल अब जेसी-810948एम), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी वी मुरगन (सं. 7430637एन अब जेसी-810949पी), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी एस विनायगम (सं. 7430639वाई अब जेसी-810950के), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी दिलीप कुमार विश्वास (सं. 7430641डब्ल्यू अब जेसी-810951एम), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी सुदिप कुमार दास (सं. 7430645एम अब जेसी-810952पी), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी एस सुधारका बाबू (सं. 7430648ए अब जेसी-810953एक्स), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी सुभाष चन्द्र दुलार (सं. 7430651ए अब जेसी-810954ए), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी मोहन लाल (सं. 7430656वाई अब जेसी-810955एच), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी डोनेवाडी वासवराज सिदराम (सं. 7430662एम अब जेसी-810956एल), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी राजपूत हरमन्दर सिंह (सं. 7430669डब्ल्यू अब जेसी-810957एन), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी मो लोकमान अन्सारी (सं. 7430673वाई अब जेसी-810958डब्ल्यू), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी मन्सूर अन्सारी (सं. 7430675के अब जेसी-810959वाई), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी रविकांत द्विवेदी (सं. 7430677पी अब जेसी-810960एन), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी पाटिल योगराज श्रीराम (सं. 7430680पी अब जेसी-810961डब्ल्यू), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी प्रदीप कुमार सेन गुप्ता (सं. 7430685एम अब जेसी-810962वाई), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी सोलंकी देवशी भाई (सं. 7430689के अब जेसी-810963एफ), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी किरण पाल (सं. 7430504एक्स अब जेसी-810964के), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी महेन्द्र कुमार पटेल (सं. 7430697एच अब जेसी-810965एम), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी राजिन्दर सिंह (सं. 7430698एल अब जेसी-810966पी), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी गोपाल सिंह राठौर (सं. 7430716एच अब जेसी-810967एक्स), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी नव्वीर मल्लेश्वरा राव (सं. 7430646पी अब जेसी-810968ए), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी कोटाडिया धर्मेण गोविन्द (सं. 7430691एच अब जेसी-810969एच), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी चवान मधुकर परशु (सं. 7430742के अब जेसी-810970एक्स), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी शेर सिंह (सं. 7430753डब्ल्यू अब जेसी-810971ए), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी करनैल सिंह (सं. 7430758पी अब जेसी-810972एच), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी रवाधिन केशरी नायक (सं. 7430762एक्स अब जेसी-810973एल), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी भोला प्रसाद (सं. 7430765एल अब जेसी-810974एन), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी संजीवन सी वी (सं. 7430767डब्ल्यू अब जेसी-810975डब्ल्यू), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी नरेन्द्र सिंह बिष्ट (सं. 7430768वाई अब जेसी-810976वाई), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी गिरिश बाबू (सं. 7430772एफ अब जेसी-810977एफ), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी निरमल सिंह डडवाल, एस एम (सं. 7430778एच अब जेसी-810978के), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी अब्राहम एन पी (सं. 7430779एल अब जेसी-810979एम), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी रेजेटी वेनुगोपाल (सं. 7430781एच अब जेसी-810980एफ), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी मंजीत सिंह ग्रेवाल (सं. 7430561वाई अब जेसी-810981के), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी भवर सिंह राठौर (सं. 7430782एल अब जेसी-810982एम), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी रविन्दर सिंह (सं. 7430783एन अब जेसी-810983पी), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी दिनेश प्रभाकर वाकलेकर (सं. 7430785वाई अब जेसी-810984एक्स), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी खालिद हुसेन खॉन (सं. 7430787के अब जेसी-810985ए), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी राने लक्ष्मण वासुदेव (सं. 7430788एम अब जेसी-810986एच), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी अजीत सिंह (सं. 7430789पी अब जेसी-810987एल), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी सत्यपाल सिंह (सं. 7430797एन अब जेसी-810988एन), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी अनन्त शर्मा (सं. 7430801एल अब जेसी-810989डब्ल्यू), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी सतीषा शेनोय (सं. 7430624डब्ल्यू अब जेसी-810993वाई), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी खुशाल सिंह (सं. 4177503वाई अब जेसी-810994एफ), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी देशमुख धनन्जय शंकर (सं. 7430665ए अब जेसी-810995के), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी लक्ष्मण गेनू खराडे (सं. 7430777ए अब जेसी-810996एम), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी प्रदीप कुमार के एन (सं. 7430542एन अब जेसी-810997पी), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी पटेल अरविन्द भाई वीरा भाई (सं. 7430687वाई अब जेसी-810998एक्स), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी अशोक कुमार यादव (सं. 7430552एक्स अब जेसी-810999ए), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी पडवले कृष्ण भगवान (सं. 7430766एन अब जेसी-811000एफ), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी चुतरा राम पिचकिया (सं. 7430664एक्स अब जेसी-811001के), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी अबदूर रसीद शिराहति (सं. 7430780ए अब जेसी-811002एम), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी चरन सिंह (सं. 7430786एम अब जेसी-811003पी), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी प्रणव सुर (सं. 7430642वाई अब जेसी-811005ए), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी ओनकार नाथ तिवारी (सं. 7430805एफ अब जेसी-811006एच), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी वीर सिंह (सं. 7430806के अब जेसी-811007एल), 01 जनवरी 2006

हवलदार/इन्ट जीडी रजिन्दर कुमार (सं. 7430807एम अब जेसी-811008एन), 01 जनवरी 2006

हवलदार/इन्ट जीडी सुनील कुमार (सं. 7430809एक्स अब जेसी-811009डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006

हवलदार/इन्ट जीडी सुरेन्द्र नाथ यादव (सं. 7430810एम अब जेसी-811010एल), 01 जनवरी 2006

हवलदार/इन्ट जीडी सुधीर कुमार सिंह पाल (सं. 7430803डब्ल्यू अब जेसी-811011एन), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी जगदीश सिंह (सं. 2983223डब्ल्यू अब जेसी-811012डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006

हवलदार/इन्ट जीडी लाल सिंह सुपेहया (सं. 7430754वाई अब जेसी-811013वाई), 08 नवम्बर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी राजेन्द्र एस (सं. 1068273एक्स अब जेसी-811014एफ), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार/इन्ट जीडी अनिल कुमार डी (सं. 7430811पी अब जेसी-811015के), 01 फरवरी 2006

हवलदार/इन्ट जीडी भैरव सिंह (सं. 7430813ए अब जेसी-811017पी), 01 फरवरी 2006

हवलदार/इन्ट जीडी ओम प्रकाश सिंह (सं. 7430816एन अब जेसी-811018एक्स), 01 मार्च 2006

हवलदार/इन्ट जीडी प्रदीप कलिता (सं. 7430652एल अब जेसी-811019ए), 01 मार्च 2006

हवलदार/इन्ट जीडी राजीब गोगोई (सं. 7430653एल अब जेसी-811021एक्स), 01 अप्रैल 2006

हवलदार/इन्ट जीडी राजकुमार यादव (सं. 7430829एल अब जेसी-811022ए), 01 अप्रैल 2006

हवलदार/इन्ट जीडी रोशन लाल (सं. 7430819एफ अब जेसी-811023एच), 01 अप्रैल 2006

हवलदार/इन्ट जीडी देवदत्त यादव (सं. 7430821वाई अब जेसी-811024एल), 01 अप्रैल 2006

हवलदार/इन्ट जीडी गुलाब बोरा (सं. 7430830ए अब जेसी-811025एन), 01 अप्रैल 2006

हवलदार/इन्ट जीडी अश्विनी कुमार रथ (सं. 7430833एन अब जेसी-811026डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

हवलदार/इन्ट जीडी श्री कान्त (सं. 7430836एफ अब जेसी-811027वाई), 01 अप्रैल 2006

हवलदार/इन्ट जीडी प्रदीप बोराह (सं. 7430837के अब जेसी-811028एफ), 01 अप्रैल 2006

हवलदार/इन्ट जीडी नादर अशोक आर पुनास्वामी (सं. 7430838एम अब जेसी-811029के), 01 अप्रैल 2006

हवलदार/इन्ट जीडी चमन लाल (सं. 7430841एम अब जेसी-811030वाई), 01 अप्रैल 2006

हवलदार/इन्ट जीडी आलोक हलदर (सं. 7430842पी अब जेसी-811032के), 01 जून 2006

हवलदार/इन्ट जीडी मूलचन्द वर्मा (सं. 7430846एल अब जेसी-811033एम), 01 जून 2006

हवलदार/इन्ट जीडी राजकुमार सिंह (सं. 1069908एक्स अब जेसी-811034पी), 01 जून 2006

हवलदार/इन्ट जीडी मगनपाल सिंह सिलायच (सं. 7430851डब्ल्यू अब जेसी-811038एल), 01 जुलाई 2006

हवलदार/इन्ट जीडी माधवन सी के (सं. 7430852वाई अब जेसी-811039एन), 01 जुलाई 2006

हवलदार/इन्ट जीडी चिन्तरंजन मंडल (सं. 7430823के अब जेसी-811040एच), 01 जून 2006

हवलदार/इन्ट जीडी राजेन्द्र सिंह (सं. 1078458एम अब जेसी-811042एन), 01 अगस्त 2006

हवलदार/इन्ट जीडी ठाकरे राजेन्द्र एल एस (सं. 7430864एन अब जेसी-811043डब्ल्यू), 01 अगस्त 2006

हवलदार/इन्ट जीडी नरेश कुमार (सं. 7430884एफ अब जेसी-811044वाई), 01 अगस्त 2006

हवलदार/इन्ट जीडी रामसुख विश्णोई (सं. 7430885के अब जेसी-811045एफ), 01 अगस्त 2006

हवलदार/इन्ट जीडी कदम अनिल एकनाथ (सं. 7430892ए अब जेसी-811046के), 01 अगस्त 2006

हवलदार/इन्ट जीडी गिरि सुशील कुमार लोकनाथ (सं. 7430895एन अब जेसी-811047एम), 01 अगस्त 2006

हवलदार/इन्ट जीडी पी सुगियान्द्रन (सं. 7430896एम अब जेसी-811048पी), 01 अगस्त 2006

हवलदार/इन्ट जीडी गुलाब सिंह (सं. 7430899के अब जेसी-811049एक्स), 01 अगस्त 2006

हवलदार/इन्ट जीडी पारथि लक्ष्मण विठ्ठल (सं. 7430824एम अब जेसी-811050एन), 01 अगस्त 2006

\*(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है।)

हवलदार/इन्ट जीडी के जया कुमार (सं. 7430927एल अब जेसी-811051पी), 01 अगस्त 2006

हवलदार/इन्ट जीडी सतीश कुमार (सं. 7430928एच अब जेसी-811052एक्स), 01 अगस्त 2006

हवलदार/इन्ट जीडी अशोक कुमार कटोच (सं. 7430929डब्ल्यू अब जेसी-811053ए), 01 अगस्त 2006

हवलदार/इन्ट जीडी केशव चन्द्र मोहनता (सं. 7430935के अब जेसी-811054एच), 01 सितम्बर 2006

हवलदार/इन्ट जीडी चन्द्रानन्द कुमार (सं. 7430936एम अब जेसी-811055एल), 01 सितम्बर 2006

हवलदार/इन्ट जीडी मदन लाल (सं. 7430945एन अब जेसी-811056एन), 01 सितम्बर 2006

हवलदार/इन्ट जीडी सुभाष चन्द्र सेन (सं. 7430953एम अब जेसी-811057डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2006

हवलदार/इन्ट जीडी ओम प्रकाश (सं. 13885439पी अब जेसी-811061वाई), 01 अक्टूबर 2006

हवलदार/इन्ट जीडी सूर्य पाल (सं. 14486065वाई अब जेसी-811062एफ), 01 अक्टूबर 2006

हवलदार/इन्ट जीडी श्री भगवान सिंह (सं. 7430630के अब जेसी-811064एम), 01 नवम्बर 2006

हवलदार/इन्ट जीडी विजय शर्मा (सं. 7430839पी अब जेसी-811065पी), 01 नवम्बर 2006

हवलदार/इन्ट जीडी क्रीश धन दत्ता (सं. 7430860एक्स अब जेसी-811066एक्स), 01 अक्टूबर 2006

हवलदार/इन्ट जीडी यश पाल (सं. 7430954पी अब जेसी-811070ए), 01 जनवरी 2007

हवलदार/इन्ट जीडी श्याम चरन विश्वास (सं. 7430859एच अब जेसी-811072एल), 01 फरवरी 2007

\*(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाती है।)

हवलदार/इन्ट जीडी देवेन्द्र प्रधान (सं. 7430958एल अब जेसी-811073एन), 01 फरवरी 2007

हवलदार/इन्ट जीडी गुरका वेंकटेश्वरलु (सं. 7430855एन अब जेसी-811074डब्ल्यू), 01 फरवरी 2007

हवलदार/इन्ट जीडी गामित रमेश भाई जिना भाई (सं. 7430890पी अब जेसी-811075वाई), 01 फरवरी 2007

हवलदार/इन्ट जीडी राम कुमार ईश्वर (सं. 7430939ए अब जेसी-811077के), 01 मार्च 2007

हवलदार/इन्ट जीडी रवि आर (सं. 14910175एच अब जेसी-811084ए), 01 अप्रैल 2007

हवलदार/इन्ट जीडी वीरेन्द्र सिंह रावत (सं. 4066119एच अब जेसी-811085एच), 01 अप्रैल 2007

हवलदार/इन्ट जीडी रमेश प्रसाद (सं. 14701272पी अब जेसी-811086एल), 1 अप्रैल 2007

हवलदार/इन्ट जीडी गंगाधर साहू (सं. 7430848डब्ल्यू अब जेसी-811087एन), 01 मई 2007

\*(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जाती है।)

हवलदार/इन्ट जीडी राजेन्द्र सिंह (सं. 4066223डब्ल्यू अब जेसी-811088डब्ल्यू), 01 मई 2007

हवलदार/इन्ट जीडी वीरेन्द्र बहादुर शाही (सं. 5845576ए अब जेसी-811089वाई), 01 मई 2007

हवलदार/इन्ट जीडी ओम प्रकाश थपलियाल (सं. 4066293पी अब जेसी-811090एन), 01 मई 2007

हवलदार/इन्ट जीडी दिवान सिंह (सं. 4066431एल अब जेसी-811094के), 01 मई 2007

हवलदार/इन्ट जीडी शक्ति चन्द्र (सं. 14379385डब्ल्यू अब जेसी-811095एम), 01 जून 2007

हवलदार/इन्ट जीडी के राधाकिष्णन (सं. 14911948के अब जेसी-811096पी), 01 जून 2007

हवलदार/इन्ट जीडी दिनेश चन्द्र (सं. 4067169ए अब जेसी-811097एक्स), 01 जून 2007

हवलदार/इन्ट जीडी गुरमेज-सिंह (सं. 14382688डब्ल्यू अब जेसी-811098ए), 01 जून 2007

हवलदार/इन्ट जीडी गंगा सिंह (सं. 4178909वाई अब जेसी-811099एच), 01 जून 2007

हवलदार/इन्ट जीडी महिन्द्र सिंह (सं. 2679759डब्ल्यू अब जेसी-811100एम), 01 जून 2007

हवलदार/इन्ट जीडी गजेन्द्र सिंह (सं. 4179908एच अब जेसी-811101पी), 01 जून 2007

हवलदार/इन्ट जीडी नागेन्द्र सिंह (सं. 14262397ए अब जेसी-811103ए), 01 जुलाई 2007

हवलदार/इन्ट जीडी सुभाष चन्द्र (सं. 14264762पी अब जेसी-811104एच), 01 जुलाई 2007

हवलदार/इन्ट जीडी हरिश चन्द्र तिवारी (सं. 4180179एक्स अब जेसी-811106एन), 01 अगस्त 2007

हवलदार/इन्ट जीडी सुदर्शन सिंह (सं. 4069075एक्स अब जेसी-811107डब्ल्यू), 01 अगस्त 2007

हवलदार/इन्ट जीडी गोविन्द बल्लभ (सं. 4180986एम अब जेसी-811109एफ), 01 सितम्बर 2007

हवलदार/इन्ट जीडी परगत सिंह (सं. 2479713के अब जेसी-811110डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2007

हवलदार/इन्ट जीडी चतर सिंह (सं. 2987417डब्ल्यू अब जेसी-811111वाई), 01 सितम्बर 2007

हवलदार/इन्ट जीडी चितरंजन नायक (सं. 7430962एन अब जेसी-811112एफ), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार (लिपिक) के पद पर

हवलदार/लिपिक पोहप सिंह (सं. 7430422पी अब जेसी-810922एक्स), 01 जुलाई 2005

हवलदार/लिपिक श्याम सुन्दर बी एस (सं. 7430423एक्स अब जेसी-810923ए), 01 जुलाई 2005

हवलदार/लिपिक काशी नाथ पाण्डे (सं. 7430827ए अब जेसी-810939एल), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार/लिपिक नन्द लाल सिंह (सं. 7430426एल अब जेसी-810990एल), 01 नवम्बर 2005

हवलदार/लिपिक निशार हुसैन (सं. 7430429वाई अब जेसी-810991एन), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार/लिपिक राम कुमार शर्मा (सं. 7430432वाई अब जेसी-810992डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार/लिपिक सुखवीर सिंह (सं. 7430433एफ अब जेसी-811004एक्स), 01 जनवरी 2006

हवलदार/लिपिक ब्रिजेश कुमार (सं. 7430435एम अब जेसी-811020पी), 01 मार्च 2006

हवलदार/लिपिक रामकुमार जाट (सं. 7430438ए अब जेसी-811031एफ), 01 मई 2006

हवलदार/लिपिक बी तिरुपति (सं. 7430440एक्स अब जेसी-811035एक्स), 01 जून 2006

हवलदार/लिपिक प्रताप सिंह मन्ता (सं. 2676840एक्स अब जेसी-811036ए), 01 जून 2006

हवलदार/लिपिक जमुनालाल एस (सं. 2882164एन अब जेसी-811037एच), 01 जुलाई 2006

हवलदार/लिपिक राम सबध (सं. 7430444एन अब जेसी-811041एल), 01 जुलाई 2006

हवलदार/लिपिक सिवान वी यस (सं. 2477325एन अब जेसी-811058वाई), 01 सितम्बर 2006

हवलदार/लिपिक मन्दिदा नाथ शाहू (सं. 7430428डब्ल्यू अब जेसी-811059एफ), 01 सितम्बर 2006

हवलदार/लिपिक अजीत सिंह (सं. 7430439एच अब जेसी-811060डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2006

हवलदार/लिपिक उमेद सिंह (सं. 7430441ए अब जेसी-811063के), 01 अक्टूबर 2006

हवलदार/लिपिक ओमपाल सिंह (सं. 7431168एच अब जेसी-811067ए), 01 नवम्बर 2006

हवलदार/लिपिक जेम्स एम एस (सं. 9923018एम अब जेसी-811068एच), 01 दिसम्बर 2006

हवलदार/लिपिक ईश्वर सिंह (सं. 14912345ए अब जेसी-811069एल), 01 जनवरी 2007

हवलदार/लिपिक सत्य देव रोय (सं. 4067796एम अब जेसी-811071एच), 01 जनवरी 2007

हवलदार/लिपिक श्याम प्रसाद चक्रवर्ती (सं. 4068401एम अब जेसी-811076एफ), 01 फरवरी 2007

हवलदार/लिपिक महेश प्रसाद (सं. 4068613एक्स अब जेसी-811078एम), 01 मार्च 2007

हवलदार/लिपिक राम प्रसाद यादव (सं. 7430403के अब जेसी-811102एक्स), 01 जुलाई 2007

हवलदार/लिपिक रामपाल सिंह चन्देल (सं. 2477377के अब जेसी-811105एल), 01 अगस्त 2007

हवलदार/लिपिक सुधीर चन्द्र दास (सं. 14254772एल अब जेसी-811108वाई), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार (अनुवादक) के पद पर

हवलदार/अनुवादक ए वी आर मुर्ती (सं. 14806146एफ अब जेसी-810932ए), 07 सितम्बर 2005

\*(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है।)

हवलदार/अनुवादक यू सी जैन (सं. 15376835एन अब जेसी-811079पी), 15 नवम्बर 2005

हवलदार/अनुवादक एम एल सामन्ता (सं. 15376877ए अब जेसी-811080के), 01 जुलाई 2006

हवलदार/अनुवादक प्रमोद कुमार के आर (सं. 15373343के अब जेसी-811081एम), 01 सितम्बर 2006

हवलदार/अनुवादक मनोज कुमार (सं. 15378746एन अब जेसी-811082पी), 01 सितम्बर 2006

हवलदार/अनुवादक संतोष कुमार (सं. 6389110एल अब जेसी-811083एक्स), 01 अक्टूबर 2006

हवलदार/अनुवादक विजया गुरुंग (सं. 5449308ए अब जेसी-811091डब्ल्यू), 25 फरवरी 2007

हवलदार/अनुवादक बिजया कुमार साहू (सं. 14269320ए अब जेसी-811092वाई), 01 मई 2007

हवलदार/अनुवादक बटु लाल जाटव (सं. 15366917एच अब जेसी-811093एफ), 01 फरवरी 2007

हवलदार/अनुवादक अशोक कुमार मिश्रा (सं. 15380567एम अब जेसी-811113के), 08 मार्च 2007

हवलदार/अनुवादक इन्द्रजीत सिंह (सं. 15375948के अब जेसी-811114एम), 01 जून 2007

(कुल 195 व्यक्ति)

जयराज  
अवर सचिव

शुद्धि-पत्र

सेना सचिव शाखा

सं. 117, दिनांक 14 फरवरी 2008--भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के दिनांक 19 मई 2007 के राजपत्र में नियमित सेना, स्थायिकमीशन, ब्रिगेडियर के मूल रैंक शीर्षक के अंतर्गत यथा परिवर्तन किया जाता है:--

ब्रिगेडियर के मूल रैंक की-प्रभावी तिथि

के लिए : कर्नल के ए नायर (आईसी-30893), मेक इन्फ, 01 अक्टूबर 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 मार्च 2005 से दी जाएगी

पढ़ें : कर्नल के ए नायर (आईसी-30893), मेक इन्फ, 01 अक्टूबर 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 मई 2005 से दी जाएगी

एन के फूकन  
संयुक्त निदेशक

## MINISTRY OF DEFENCE

## (ARMY BRANCH)

New Delhi, the 1st March 2008

No. 103, dated 13th February 2008.—The President is pleased to make the following appointments:—

## REGULAR ARMY

## (SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Lt

The undermentioned 40 Officers of WSES (O)-29 Course have completed Special Short Service Commission (on probation) for six months commencing from 17 Mar 2007. They are granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant for a period of five years wef 17 Mar 2007 under the provisions of SAI 1/S/92 as amended:—

Personal No., Name, Arm/Service

WS-01280L, Anupreksha Rawat, Sigs  
 WS-01281N, Vandna Sharma, AOC  
 WS-01283Y, Neha Jain, AAD  
 WS-01284F, Neetu PACHauri, AOC  
 WS-01285K, Priyanka Kandpal, AOC  
 WS-01287P, Deepika Saini, ASC  
 WS-01289A, Neerja Singh, AAD  
 WS-01293M, Monu Kumari, ASC  
 WS-01297Y, Asha Kuntal, AOC  
 WS-01298F, A Arunmerina, AOC  
 WS-01299K, Sheilza Dogra, AEC  
 WS-01300N, Deepali A Karwande, Int  
 WS-01301W, Sushila Devi, AAD  
 WS-01303F, Amanpreet Kaur, AOC  
 WS-01304K, Alpna, AOC  
 WS-01307X, Asmita, AOC  
 WS-01311A, Harjit Kour, AAD  
 WS-01312H, Pashine Monal Nikhil Kumar, Jag  
 WS-01313L, Charul Bhatt, Jag  
 WS-01314N, Sujata Chaudhary, AEC  
 WS-01315W, Richa Datt, Int  
 WS-01317F, Navdeep Kaur, AEC  
 WS-01321K, Soumita Ganguly, AEC  
 WS-01322M, Sangeeta, ASC  
 WS-01323P, Vaishali Sharma, Jag  
 WS-01325A, Nita Ghosh, AOC

WS-01327L, Priyadarshini, AOC  
 WS-01330L, Baby Padmaja Thota, AOC  
 WS-01331N, Ritika Sharma, AOC  
 WS-01332W, Rajni Chavakula TS, ASC  
 WS-01333Y, Rattandeep Kaur Plaha, Engrs  
 WS-01335K, Shweta Srivastava, AAD  
 WS-01337P, Swati Shekhawat, ASC  
 WS-01339A, Sheetal Sharma, AAD  
 WS-01343H, Ritu Solanki, ASC  
 WS-01344L, Himani Luthra, AEC  
 WS-01346W, Prameela Kumari Alva U, AOC  
 WS-01348F, Aradhana, ASC  
 WS-01350Y, Upasana Yadav, ASC  
 WS-01352K, Kumari Noopur, AOC

The Undermentioned 30 Officers of WSES (O)-29 Course are granted Special Short Service Commission (on Probation) in the rank of Lt under the provisions of AI 10/96 (Corrigendum No. 9 dated 01 Jun 96 to SAI 1/S/92) wef date shown against their Names below. On successful completion of their training at OTA Chennai, their Special Short Service Commission (on probation) is confirmed, ie, they are granted Short Service Commission for five years wef 17 Mar 2007. They are also granted two years ante-date seniority for promotion and increments of pay wef 20 Mar 2005 for possession of technical qualification under the above AI:—

Personal Number, Name, Effective Date of Special, Short Service Commission (on probation), Arm/Service

WS-01282W, Charu Sharma, 03.10.2006, Sigs  
 WS-01286M, Tania Paul Chowdhury, 03.10.2006, Sigs  
 WS-01288X, Nidhi Chandel, 03.10.2006, Engrs  
 WS-01290P, Suman Kumari, 20.10.2006, Sigs  
 WS-01291X, Ghodke Madhuri Dattatraya, 03.10.2006, Sigs  
 WS-01292A, Neha Khajuria, 03.10.2006, EME  
 WS-01294L, Syeda Firasatunnisa Begum, 03.10.2006, Sigs  
 WS-01295N, Bhawna Kumari, 03.10.2006, EME  
 WS-01296W, Deepali Negi, 03.10.2006, Sigs  
 WS-01302Y, Kamini Pokhariya, 03.10.2006, EME  
 WS-01305M, Megha Mohanan, 20.10.2006, EME  
 WS-01306P, Malvika Bhardwaj, 03.10.2006, EME  
 WS-01308A, Shivani Garg, 03.10.2006, Engrs  
 WS-01309H, Sumukhi Misri, 03.10.2006, EME  
 WS-01316Y, Sneha Susanitty, 20.10.2006, Sigs  
 WS-01318K, Mandeep Kaur Mann, 03.10.2006, EME  
 WS-01319M, PN Sirisha, 22.10.2006, Sigs

WS-01320F, Jaya Mehta, 03.10.2006, EME  
 WS-01324X, Ruchika, 03.10.2006, EME  
 WS-01326H, Aarti Prasher, 03.10.2006, Engrs  
 WS-01329W, Parminder Kour, 03.10.2006, Engrs  
 WS-01334F, Prarthana Singh, 03.10.2006, EME  
 WS-01338X, Megha Gupta, 15.10.2006, EME  
 WS-01340P, Menon Sunita Ramadas, 03.10.2006, Engrs  
 WS-01341X, Deepika Sharma, 22.10.2006, Sigs  
 WS-01342A, Munshi Natasha Riyazahmed, 03.10.2006, Sigs  
 WS-01345N, Poonam Sharma, 03.10.2006, Sigs  
 WS-01347Y, Pragya Shukla, 03.10.2006, Sigs  
 WS-01349K, Amrita Singh, 20.10.2006, Engr  
 WS-01351F, Saranyan N, 22.10.2006, EME

NILESH CHOWDHARY

Maj  
 AMS 8B

No. 104, dated 13th February 2008.—The President of India has made the following appointments on her Honorary Personal Staff with effect from 01.01.2008:—

Honorary Army ADC

IC-32703Lt Gen KS Venugopal, AVSM (EME)

Honorary Air ADC

Air Marshal PP Raj Kumar, AVSM (12018) F (P)

Honorary Air ADC

Air Marshal YR Rane, AVSM, VM (12210) F (P)

BALRAM VERMA  
 Under Secy.

#### INTEGRATED HEADQUARTERS-MIN OF DEFENCE (NAVY)

(Dte of Admin/Civ Section)

No. 105, dated 11th February 2008.—The President is pleased to appoint Shri Shambhu Roy, Assistant of AFHQ Civil Service as Section Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- under Rule 7 (8) of AFHQ Civil Service Rules 2001 for a period from 20.12.2007 to 23.02.2008 or till regular incumbent becomes available or till such time the officer retires, whichever is earlier.

The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

SHANKAR SINGH  
 Dy. Chief Administrative Officer (A)

#### DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 106, dated 12th February 2008.—The President is pleased to make the following appointments:—

The undermentioned individuals to be temporary Scientist (s) 'B' (Group 'A') in the Defence Research & Development Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/-:—

Name, Estt, Date of Apptt.

Shri Vijay Kumar, TBRL, Chandigarh, 20.08.2002

Shri Hitendra Singh Pawar, TBRL, Chandigarh, 08.08.2002

Ms. Preeti Jain, TBRL, Chandigarh, 24.09.2002

Ms. Hemlata Gautam, TBRL, Chandigarh, 23.09.2002

Shri M Vijay Kumar, ADE, Bangalore, 22.08.2005

Shri Nikhil Sharma, ARDE, Pune, 12.04.2004

Shri Jagdamba Prasad Sati, CABS, Bangalore, 14.04.2005

Shri Amit Tirkey, CABS, Bangalore, 19.08.2005

Shri Suresh Kumar Antil, CABS, Bangalore, 14.04.2005

Ms. Annapurna Agrawal, CAIR, Bangalore, 22.09.2005

Shri Shinde Yogesh Shivaji, CAIR, Bangalore, 14.04.2005

Shri Sandeep Kumar Sharma, CAIR, Bangalore, 14.04.2005

Ms Durgesh Nandini, CFEES, Delhi, 03.06.2005

Shri S Mohammad Hidayathulla, CVRDE, Chennai, 14.04.2005

Shri N Ilaiyaraja, DFRL, Mysore, 27.10.2005

Shri Uddanti Ravi Kiran, DMRL, Hyderabad, 20.06.2005

Shri Himanshu Ojha, INMAS, Delhi, 07.06.2005

The Undermentioned Scientist (s) 'B' to be Scientist 'C' in the Defence Research & Development Service with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of Rs. 10,000-325-15,200/-:—

Status Name, Estt, Date

Shri Kaushal K Kanwariya, DEAL, Dehradun, 01.07.2007

Shri Trilok Kumar Saini, DEAL, Dehradun, 01.07.2007

Shri Atul Wadhwa, DEAL, Dehradun, 01.07.2007

Shri Deepak Jassal, DEAL, Dehradun, 01.07.2007

Shri Binod Pal, DEAL, Dehradun, 01.07.2007

Ms. Sonali Agarwal, DEAL, Dehradun, 01.07.2007

Shri Lokendra Kumar Singh, DEAL, Dehradun, 01.07.2007

Shri Kapil Kumar Srivastava, DEAL, Dehradun, 01.07.2007

Shri Nitin Gupta, DEAL, Dehradun, 01.07.2007

Shri Rajendra Kumar Gupta, DEAL, Dehradun, 01.07.2007

Shri Piyush Ranjan Jaiswal, DEAL, Dehradun, 01.07.2007

Shri Aveek Shankar Brahmachari, DEAL, Dehradun, 01.07.2007



Ms. Jaspreet Kaur, DEAL, Dehradun, 01.07.2007  
 Shri Rabi Chowdhury, DEAL, Dehradun, 01.07.2007  
 Ms. Subhashini, DEAL, Dehradun, 01.07.2007  
 Ms. Savitri Devi, DEAL, Dehradun, 01.07.2007  
 Shri Mahaveer Prasad, DLJ, Jodhpur, 01.07.2007  
 Shri Kamal Prakash Singhal, DLJ, Jodhpur, 01.07.2007  
 Shri Deepak Gupta, DLJ, Jodhpur, 01.07.2007  
 Shri Arvind Parihar, DLJ, Jodhpur, 01.07.2007  
 Shri Rohitash Kumar, DLJ, Jodhpur, 01.07.2007  
 Shri Lalit Panwar, DLJ, Jodhpur, 01.07.2007  
 Ms. Sadhna H Kulkarni, HEMRL, Pune, 01.07.2007  
 Shri RS Kapse, HEMRL, Pune, 01.07.2007  
 Shri KG Bhalerao, HEMRL, Pune, 01.07.2007  
 Dr. VS Sadavarte, HEMRL, Pune, 01.07.2007  
 Shri NR Bulakh, HEMRL, Pune, 01.07.2007  
 Ms. RM Roy, HEMRL, Pune, 01.07.2007  
 Shri AG Nagarkar, HEMRL, Pune, 01.07.2007  
 Shri AP Singh, HEMRL, Pune, 01.07.2007  
 Shri SN Jawalkar, HEMRL, Pune, 01.07.2007  
 Shri PT Gopale, HEMRL, Pune, 01.07.2007  
 Shri SM Pansare, HEMRL, Pune, 01.07.2007  
 Shri SR Gore, HEMRL, Pune, 01.07.2007  
 Shri SH Sonawane, HEMRL, Pune, 01.07.2007  
 Shri DN Meshram, HEMRL, Pune, 01.07.2007  
 Shri RM Wagh, HEMRL, Pune, 01.07.2007  
 Shri J Saji, HEMRL, Pune, 01.07.2007  
 Shri M Venkata Swamy, HEMRL, Pune, 01.07.2007  
 Shri Balesh Ropia, HEMRL, Pune, 01.07.2007  
 Shri Abhay Kumar Yadav, HEMRL, Pune, 09.07.2007  
 Shri Rakesh Kumar Kalal, HEMRL, Pune, 01.07.2007  
 Shri Sunil Jaiswal, HEMRL, Pune, 01.07.2007  
 Shri GS Dombhe, HEMRL, Pune, 01.07.2007  
 Shri Sitakanta Behera, HEMRL, Pune, 01.07.2007  
 Shri PC Rao, HEMRL, Pune, 01.07.2007  
 Shri M Suresh, HEMRL, Pune, 01.07.2007  
 Ms. Kamakshi Gupta, HEMRL, Pune, 01.07.2007  
 Ms. Diana Salvio, HEMRL, Pune, 01.07.2007

P. SARATH  
 Jt. Director (Pers)

No. 107, dated 12th February 2008—The President is pleased to appoint Shri Ajoy Acharya, IAS(MP: 76), presently

Financial Adviser (Acquisition), Member Defence Procurement Board and Additional Secretary, Ministry of Defence as Additional Secretary, Department of Defence Production, Ministry of Defence w.e.f. 4.12.2007(AN) until further orders, vice Shri P.K. Rastogi, IAS (AP : 74).

Consequent on inclusion of their names in the Select Lists for the year 2001 and 2002 for Selection Grade of Central Secretariat Service (CSS), the President is pleased to appoint the following Deputy Secretaries (ad-hoc) of CSS, Ministry of Defence, to the Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) on regular basis in the same Ministry, with effect from the date indicated against them and until further orders in pursuance of Department of Personnel & Training OM No. 4.1.2007-CS.I(D) dated 1st/7th November, 2007:—

#### Selection Grade for SL 2001

Shri R. K. Gathwal, Deputy Secretary 1.7.2001

#### Selection Grade for SL 2002

Shri Jose Thomas, Deputy Secretary 1.7.2002

Shri Y.D. Mehta, Deputy Secretary 1.7.2002

Consequent on inclusion of his name in the Select List for the year 2001 for Selection Grade of Central Secretariat Service (CSS), the President is pleased to appoint Shri J.S. Bhatia, Deputy Secretaries (ad-hoc) of CSS (who has retired on superannuation w.e.f. 31.8.2007 (AN), Ministry of Defence, to the Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) on regular basis with effect from 1.7.2001 in pursuance of Department of Personnel & Training OM No. 4.1.2007-CS.I(D) dated 1st November, 2007:—

S. K. DEB  
 Under Secy.

No. 108, dated 12th February 2008.—Consequent on his promotion to the Stenographer Grade 'A&B' (Merged) (Private Secretary) of CSSS vide Department of Personnel & Training O.M. No. 5.8.2006-CS.II, dated 9th August, 2007, the President is pleased to appoint Shri Sartaj S. Lakra, Stenographer Grade 'C' of CSSS Cadre of Department of Revenue, Ministry of Finance, to the post of Stenographer Grade 'A&B' (Merged) of CSSS in the Ministry of Defence on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of 1st November, 2007 till 31.12.2007 or till regular officer becomes available or until further orders, whichever is earlier subject to the following conditions:—

(i) The Ad-hoc appointment shall not confer him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS.

(ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

Consequent on his promotion to the Stenographer Grade 'A&B' (Merged) (Private Secretary) of CSSS vide Department of Personnel & Training O.M. No. 5.8.2006-CS.II, dated 9th August, 2007, the President is pleased to appoint Shri Rajvir Singh Dabas, Stenographer Grade 'C' of CSSS Cadre of Ministry of Rural Development, to the post of Stenographer Grade 'A&B' (Merged) of CSSS in the Ministry of Defence on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of 13th November, 2007 till 31.12.2007 or till regular officer becomes available or until further orders, whichever is earlier subject to the following conditions:—

(i) The ad-hoc appointment shall not confer him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS.

(ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

Consequent on his promotion to the Stenographer Grade 'A&B' (Merged) (Private Secretary) of CSSS vide Department of Personnel & Training O.M. No. 5.8.2006-CS.II, dated 1st March, 2007, the President is pleased to appoint Shri Kamal Kumar, Stenographer Grade 'C' of CSSS Cadre of Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Ministry of Agriculture, to the post of Stenographer Grade 'A&B' (Merged) of CSSS in the Ministry of Defence on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the afternoon of 7th December, 2007 till 31.12.2007 or till regular officer becomes available or until further orders, whichever is earlier subject to the following conditions:—

(i) The ad-hoc appointment shall not confer him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS.

(ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

S. K. DEB  
Under Secy.

No. 109, dated 12 February 2008.—Consequent on being approved for appointment as Joint Secretary in the Department of Justice, the services of Shri Shashi Bhushan, CSS (74), Director, Ministry of Defence are placed at the disposal of the Department of Justice w.e.f. 1.11.2007 (AN) vice Smt. Gargi Mukherjee, CSS (74).

On completion of her extended tenure as Director in the Ministry of Defence and also on completion of the 47th NDC Course, the services of Smt. T. Rajeswari, ISS (85), are placed at the disposal of the Ministry of Statistics & Programme Implementation w.e.f. 30.11.2007 (AN).

Consequent on his selection for posting as Counsellor (Coord), Embassy of India, Moscow, the services of Shri Sanjay Prasad, IAS (GJ :86), Director, Ministry of Defence are placed at the disposal of Embassy of India, Moscow, w.e.f. 27.12.2007 (AN).

S. K. DEB  
Under Secy.

#### (ARMY BRANCH)

No. 110, dated 11th February 2008—The President is pleased to confirm the services of the undermentioned Captains on completion of their probationary period with effect from the dates shown against each.

#### REGULAR ARMY

##### Short Service Commission

Rank & Name, Pers No., Corps, Date of Confirmation

Capt Vipul Kumar Singh, VS-1101A, RVC, 20.06.2005

Capt Dinesh Nagar, VS-1102H, RVC, 20.06.2005

Capt Sudheesh S Nair, VS-1103L, RVC, 20.06.2005

Capt Jesjith P, VS-1104N, RVC, 20.06.2005

Capt Winson Daniel Abraham C, VS-1105W, RVC, 20.06.2005

Capt N Babu, VS-1106Y, RVC, 20.06.2005

Capt Krishnendu Kundu, VS-1107F, RVC, 20.06.2005

Capt S Subeesh, VS-1108K, RVC, 20.06.2005

Capt Fernandes Richmark Igmi, VS-1109M, RVC, 20.06.2005

Capt Navneet Joshi, VS-1110F, RVC, 20.06.2005

Capt Manish Kumar, VS-1111K, RVC, 20.06.2005

Capt Prashant Tripathi, VS-1112M, RVC, 20.06.2005

Capt Sanjeeth BS, VS-1113P, RVC, 20.06.2005

Capt Anish Antony, VS-1114X, RVC, 20.06.2005

Capt Deepak EV, VS-1115A, RVC, 20.06.2005

Capt Doddappa Hugar, VS-1116H, RVC, 20.06.2005

Capt Rajendra Singh Yadav, VS-1117L, RVC, 20.06.2005

Capt Mukesh Kumar Parti, VS-1118N, RVC, 20.06.2005

Capt V Kamalraj, VS-1119W, RVC, 20.06.2005

Capt Faustin Joy, VS-1120L, RVC, 20.06.2005

Capt Noble T George, VS-1121N, RVC, 20.06.2005

Capt Philip Varghese, VS-1122W, RVC, 20.06.2005

Capt Rahul Babulal Dange, VS-1123Y, RVC, 20.06.2005

P RAMA SASTRY  
Under Secy.

ARMY BRANCH  
REGULAR ARMY

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

No. 111 dated 11th February 2008.—The President is pleased to make the following promotions:—

To be Risaldar Major (ASH)

Risaldar Satyavir Singh (JC-680332L), 09 Sep 2007/01 Jun 2007\*

To be Risaldar (ASH)

Naib Risaldar Paramjit Singh (JC-680765K), 08 Sep 2007/01 May 2007\*

Naib Risaldar Kameshwar Mishra (JC-680772A), 10 Sep 2007/01 May 2007\*

Naib Risaldar Hira Lal (JC-680783M), 08 Jun 2007/01 May 2007\*

Naib Risaldar Inder Dev Ram (JC-680778F), 14 Sep 2007/01 May 2007\*

Naib Risaldar Pratap Lal (JC-680793W), 09 Jul 2007/01 May 2007\*

Naib Risaldar R P Mishra (JC-680804X), 07 Sep 2007/01 Jun 2007\*

Naib Risaldar Ladu Ram (JC-680807L), 15 Sep 2007/01 Jun 2007\*

Naib Risaldar Bhawani Din (JC-680810L), 07 Sep 2007/01 Jun 2007\*

Naib Risaldar Bisharjan Thakur (JC-680812W), 04 Sep 2007/01 Jun 2007\*

Naib Risaldar Shyam Bihari Singh (JC-680813Y), 10 Sep 2007/01 Jun 2007\*

Naib Risaldar Niranjan Sah (JC-680814F), 10 Sep 2007/01 Jun 2007\*

Naib Risaldar Ram Pal (JC-680815W), 04 Sep 2007/01 Jun 2007\*

Naib Risaldar Ram Krit Ram (JC-680817P), 04 Sep 2007/01 Jun 2007\*

Naib Risaldar B C Gogai (JC-680821X), 13 Sep 2007/01 Jun 2007\*

Naib Risaldar Shyam Karan Yadav (JC-680826W), 12 Sep 2007/01 Jun 2007\*

Naib Risaldar Jagat Chandra Borah (JC-680827Y), 06 Sep 2007/01 Jun 2007\*

\*(Gtd ante-date seniority without effect on pay and allces wef).

To be Naib Risaldar (ASH)

Dafadar K C Mahto (No. 6379438Y now JC-680985N), 18 Sep 2007/01 May 2007\*

Dafadar Basant Prasad (No. 6476087X now JC-680986W), 03 Sep 2007/01 May 2007\*

Dafadar Aan Singh (No. 6476096A now JC-680987Y), 24 Sep 2007/01 May 2007\*

Dafadar Mangat Singh (No. 3383225A now JC-680992K), 11 Sep 2007/01 May 2007\*

Dafadar Chatter Singh (No. 3382947A now JC-681003H), 17 Sep 2007/01 Jun 2007\*

Dafadar Lakhwinder Singh (No. 3383508F now JC-681004W), 10 Sep 2007/01 Jun 2007\*

Dafadar R P Yadav (No. 6476195H now JC-681006W), 09 Sep 2007/01 Jun 2007\*

Dafadar V Kesavan (No. 6471958K now JC-681008F), 07 Sep 2007/01 Jun 2007\*

Dafadar N N Rangnath (No. 6472773P now JC-681009K), 14 Sep 2007/01 Jun 2007\*

Dafadar Diwakar Lal (No. 6476020A now JC-681010Y), 12 Sep 2007/01 Jun 2007\*

Dafadar Jhalaru Ram (No. 6476199Y now JC-681011F), 12 Sep 2007/01 Jun 2007\*

Dafadar Ram Samujh (No. 6476233N now JC-681013M), 11 Sep 2007/01 Jun 2007\*

Dafadar Surendra Singh (No. 6476240K now JC-681015X), 21 Sep 2007/01 Jun 2007\*

Dafadar Narayan Biswas (No. 6476217W now JC-681018L), 12 Sep 2007/01 Jun 2007\*

Dafadar Shyam Sundar Paul (No. 6472436A now JC-681021L), 01 Oct 2007/01 Jun 2007\*

Dafadar B K Yadav (No. 6472711P now JC-681023W), 01 Oct 2007/23 Jun 2007\*

Dafadar Mahadeo (No. 6472740K now JC-681024Y), 12 Sep 2007/23 Jun 2007\*

Dafadar Vijayan TK (No. 6476108K now JC-681025F), 18 Sep 2007/23 Jun 2007\*

Dafadar Kulbir Singh (No. 3383453H now JC-681026K), 08 Sep 2007/23 Jun 2007\*

Dafadar Markande Thakur (No. 6476300W now JC-681031P), 22 Sep 2007/01 Jul 2007\*

\*(Gtd ante-date seniority without effect on pay and allces wef).

P. RAMA SASTRY  
Under Secy.

No. 112, dated 11th February 2008.—The President is pleased to make the following promotions:—

# REGULAR ARMY

## INFANTRY

### BRIGADE OF THE GUARDS

#### To be Subedar Major (Clerk)

Sub (Clk) Pradyumna Mishra (JC-402665H), 03 Dec 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Subedar Major (Clerk) without effect on pay and allces wef 01 Dec 2007).

#### To be Subedar

Nb Sub Chinta Mani (JC-403457A), 01 Nov 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 17 Dec 2006).

Nb Sub Pulin Chandra Deka (JC-403386K), 09 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jan 2007).

Nb Sub Ram Singh (JC-403416W), 17 Jul 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jul 2007).

Nb Sub Alok Kumar BhattACharya (JC-403456X), 07 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 01 Sep 2007).

Nb Sub Dileep Kumar (JC-403829A), 01 Sep 2007

Nb Sub Ang Pal (JC-403681M), 29 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 03 Sep 2007).

Nb Sub Radhakrishnan V (JC-403431L), 10 Sep 2007

Nb Sub Rameshwar Lal Jat (JC-403715P), 08 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 01 Oct 2007).

Nb Sub Ajit Singh (JC-403611N), 01 Oct 2007

Nb Sub Narinder Singh (JC-403608N), 15 Nov 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 01 Oct 2007).

Nb Sub Vijayan K (JC-403538A), 01 Oct 2007

Nb Sub Bharat Prasad Ojha (JC-403470K), 01 Oct 2007

Nb Sub Santhosh Kumar KM (JC-403628F), 01 Oct 2007

Nb Sub Suraj Pal (JC-403519P), 30 Oct 2007

Nb Sub Bajrang Singh (JC-403542H), 30 Oct 2007

Nb Sub Lakshmi Kanta Jana (JC-403353Y), 15 Nov 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 01 Nov 2007).

Nb Sub Taj Mohammed (JC-403565K), 01 Nov 2007

Nb Sub Narpat Singh (JC-403566M), 01 Nov 2007

Nb Sub Raj Kumar (JC-403210Y), 01 Nov 2007

Nb Sub Anand Ballabh (JC-403464W), 12 Nov 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 01 Nov 2007).

Nb Sub Shyam Singh (JC-403465Y), 05 Nov 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 01 Nov 2007).

Nb Sub Bedhan Ch Nath (JC-403482Y), 05 Nov 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 01 Nov 2007).

Nb Sub Ahir Lala Bhai Meva Bhai (JC-403709F), 01 Nov 2007

Nb Sub Kumar Pal Singh (JC-403718H), 01 Nov 2007

#### To be Subedar (Clerk)

Nb Sub (Clk) Ziley Singh (JC-403469P), 01 Dec 2007

Nb Sub (Clk) Kailash Chand (JC-403478W), 01 Dec 2007

Nb Sub (Clk) Rattan Singh (JC-403484K), 01 Dec 2007

#### To be Subedar (SKT)

Nb Sub (SKT) Ram Kishan Singh (JC-403368F), 01 Aug 2007

#### To be Nb Sub

Hav S K Mortaja (No. 15613110X now JC-404136P), 20 Nov 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 29 Jul 2006).

Hav Santosh Singh Tomar (No. 13690720X now JC-404137X), 05 Aug 2007

Hav Lankeswar Ray (No. 13685486H now JC-404143X), 30 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 19 Aug 2007).

Hav Surajmal Gujar (No. 13689803W now JC-404144N), 24 Aug 2007

Hav Shreekant Hanchinamani (No. 13690574H now JC-404152M), 22 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 10 Sep 2007).

Hav Joginder Kumar (No. 13687972Y now JC-404155A), 17 Nov 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 10 Aug 2007).

Hav Pyare Lal (No. 13688186M now JC-404156H), 21 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Oct 2007).

Hav Krishna Nand Mishra (No. 13688521L now JC-404157L), 22 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Oct 2007).

Hav Shish Ram (No. 13691269H now JC-404158N), 01 Oct 2007

Hav Balveer Singh (No. 13689218W now JC-404159W), 01 Nov 2007

Hav Mohinder Paul Gupta (No. 13690511A now JC-404160L), 01 Nov 2007

Hav Sumer Singh Chahar (No. 13690517F now JC-404161N), 01 Nov 2007

Hav Lal Bahadur Singh (No. 13690791Y now JC-404164F), 01 Sep 2007

Hav Badlu Ram (No. 13689117H now JC-404165K), 03 Sep 2007

Hav BalAChandran D (No. 13690884N now JC-404166M), 26 Sep 2007

Hav Mahendra Kumar (No. 13690897L now JC-404167P), 01 Oct 2007

Hav Kalyan Singh Bika (No. 13689153N now JC-404168X), 01 Oct 2007

Hav Jile Singh (No. 13689215H now JC-404169A), 01 Oct 2007

Hav Hari Singh Gurjar (No. 13689337M now JC-404170P), 01 Nov 2007

Hav Mahesh Chandra (No. 13689503P now JC-404171X), 15 Dec 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Nov 2007).

Hav Surjit Kumar (No. 13689591W now JC-404172A), 02 Nov 2007

Hav Nirmal Singh (No. 13690022P now JC-404173H), 02 Nov 2007

Hav Hari Krishan (No. 13687933A now JC-404174L), 05 Nov 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Nov 2007).

Hav Suresh Kumar (No. 13688052N now JC-404175N), 05 Nov 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Nov 2007).

Hav Madan Mohan Pandey (No. 13688078H now JC-404176W), 05 Nov 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Nov 2007).

Hav Sri Santos Kumar Sharma (No. 13688624K now JC-404177Y), 14 Nov 2007

Hav Gangi Sayanna (No. 13689157K now JC-404178F), 23 Nov 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 04 Nov 2007).

Hav Sarvajeet (No. 13688548H now JC-404182K), 01 Dec 2007\*

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Jaya Chandran P (No. 13692625K now JC-404179K), 01 Dec 2007

Hav (Clk) Shyam Lal (No. 13692629A now JC-404180Y), 01 Dec 2007

Hav (Clk) Ram Niwas (No. 13683868N now JC-404181F), 01 Dec 2007

To be Nb Sub (SKT)

Hav (SKT) Ratheesh Kumar N (No. 13688742X now JC-404163Y), 01 Aug 2007

#### THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Naib Subedar (Clk)

Hav (Clk) Triveni Upadhyaya (No. 14912263X now JC-420791X), 01 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) without effect from 01 Jun 2007 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Kuldeep Singh (No. 14912270N now JC-420792A), 17 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) without effect from 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Satpal (No. 14912273F now JC-420793H), 18 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) without effect from 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Asha Ram (No. 14912337F now JC-420794L), 01 Dec 2007

J ROY CHOWDHURY  
Under Secy.

#### DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 113, dated 13th February 2008.—The President is pleased to promote the following officers from existing grade w.e.f. 01 Sep 2007 (F/N) as mentioned against each:—

Name (Shri/Smt), Lab/Estt, Existing Grade, Promoted to, Pay Scale of Promoted Grade

V. Koteswara Rao ADE, TO 'C', TO 'D', Rs. 12,000-375-16,500/-

Asma Begum ADE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-	A Tamil Mani GTRE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-
R Selvanayagy ADE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-	K G Srinivasan GTRE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-
V Venkatesu Chetty ADE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-	S Sunder Raj GTRE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-
D Sugumaran ADE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-	KV Nagaraj GTRE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-
T Manivannan ADE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-	S R Mohan GTRE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-
P Elangovan ADE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-	G Ramamirutham GTRE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-
C Parthasarathy ADE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-	N S Purushotama GTRE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-
SH. Leelavathi ADE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-	V K Sharma GTRE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-
M Mohan ADE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-	V Shanthi GTRE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-
S Sivanarayana ADE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-	Daniel Mariadass GTRE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-
S Lingappa ADE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-	Srikanth Hegde GTRE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-
P Shanmugam ADE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-	Imtiyaz Pasha GTRE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-
M.P Kuntar ADE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-	D Mathew ARDE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-
MB Ramesh ADE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-	V V Bavikar ARDE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-
Lakshmikantha Raju ADE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-	D R Kolhatkar ARDE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-
K SadasivAChar ADE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-	Raichel Mathai ARDE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-
K Satyanarayana ADE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-	D M Kadam ARDE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-
S Shridevi ADE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-	P L Angre ARDE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-
K Shankar Naik ADE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-	S C Bharamgude ARDE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-
Shankar GTRE, TO 'C', TO 'D', Rs. 12,000-375-16,500/-	D B Ingle ARDE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-
Jav Murthy GTRE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-	V A Nerkar ARDE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-
S Lokeswara Rao GTRE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-	N P Kumbhare ARDE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-
K N Yuvraj GTRE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-	A V Suryawanshi ARDE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-
K Prabhakaran GTRE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-	I S Karadkar ARDE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-
M Sivanathan GTRE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-	M J Kakade ARDE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-
C Ravichandran GTRE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-	S N Karanjkar ARDE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-
S L Narasimhan GTRE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-	P S Gaware ARDE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-
J Bhoopathy GTRE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-	K J Mane ARDE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-
M Ahmad Basha GTRE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-	S N Chavan ARDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-
R Panneer Selvam GTRE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-	S H Ambare ARDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-
M Mahendra Babu GTRE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-	Dass Nair ARDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-
	A S Newase ARDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-

P K Kedare ARDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-  
 A K Dhekne ARDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-  
 V B Paradhi ARDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-  
 A V Wagh ARDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-  
 S B Anekar ARDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-  
 A Ramamoorthi ARDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-  
 V Khadke ARDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-  
 Z. B. Raskar ARDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-  
 V S Puneekar ARDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-  
 P S Mestri ARDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-  
 R S Patil ARDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-  
 V M Gaikwad ARDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-  
 M B Jorkar ARDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-  
 U D Dhurnal ARDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-  
 V K Deshpande VRDE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-  
 D V Joshi VRDE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-  
 P B Salunke VRDE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200/-  
 B. B. Bhagat VRDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-  
 S S Kareshiya VRDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-  
 N R Sarode VRDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-  
 Sam Shaikh VRDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-  
 Dinesh Kumar VRDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-  
 S S Dahifale VRDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-  
 R M Sonawane VRDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-  
 S N Mandhare VRDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500/-

The Under-mentioned individuals are promoted from STA 'C' to TO 'A' and TA 'C' to TO w.e.f. 01 Sep 2007 (F/N).

N Manjunatha GTRE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500/-

M Vishwanath GTRE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500/-

V Rangadasan GTRE, TA-C, TO , Rs. 7,450-225-11,500/-

V S Unus GTRE, TA-C, TO , Rs. 7,450-225-11,500/-

A Y Gaikwad VRDE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500/-

R H Tathe VRDE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500/-

M D Jadhav VRDE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500/-

A M Lute VRDE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500/-

N B Patil VRDE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500/-

H I Nozar VRDE, TA 'C', TO, Rs. 7,450-225-11,500/-

G Hari Raj DLRL, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500/-

M V Rajeswari DLRL, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500/-

K Nageswara Rao DLRL, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500/-

K R Rama Subba Rao LRDE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500/-

N Dinesha LRDE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500/-

A Mahalingam LRDE, TA 'C', TO, Rs. 7,450-225-11,500/-

RSN Murthy LRDE, TA 'C', TO, Rs. 7,450-225-11,500/-

N D Sawant ARDE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500/-

A J Tengale ARDE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500/-

J Y Gudway ARDE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500/-

K K Shinde ARDE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500/-

T D Sangamnerkar ARDE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500/-

S P Khanapure ARDE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500/-

S D Sharma ARDE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500/-

C M Lonkar ARDE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500/-

S M Kulkarni ARDE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500/-

Suhas A Bhatamrekar ARDE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500/-

V K Pillay ARDE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500/-

M B Barshikar ARDE, TA-C, TO Rs. 7,450-225-11,500/-

ABHINAVJEET OJHA  
 Dy Director (Pers-I)

No. 114, dated 13th February 2008.—The President is pleased to make the following promotions:—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

IC No.	Name &, Arm
65151	Praveen Kumar, Inf
65152	Sidharth Pant, Mech Inf
65154	Amarjeet Singh, Inf
65155	Mandeep Singh, Arty
65156	Pratyush Gautam, AOC
65157	Sameer Tamhankar, Arty

65158	Dharamveer Singh, AC	65202	Pankaj Chauhan, Arty
65159	Shailendra Singh Negi, Inf	65204	Anil Kumar Sharma, Inf
65160	Naik Jeetendra V, ASC	65207	Shivendra Pal Singh Rawat, Arty
65161	Anup Chakraborty, Int	65208	Ramesh Daber, Inf
65162	Abhishek Sharma, Arty	65209	Param Vir Singh Jamwal, Inf
65164	Lokesh Joshi, Inf	65210	Ran Singh, Inf
65165	Rohit Verma, Arty	65211	Amit Bhardwaj, Inf
65166	Jayant Singh, ASC	65214	Ripan Jain, AOC
65167	Nungleppam Buddhimaniasingh, Inf	65215	Maulik Chander, Arty
65168	Sudhir Parmar, Inf	65216	Pujari Dheeraj S, Mech Inf
65169	Vijay Uniyal, Inf	65218	Nikhil Kumar, AOC
65170	Rahul Sequeira, AOC	65219	Shailendra Singh, Inf
65174	Awinash Kumar, Inf	65220	Jeevan B, Inf
65175	Kunal Bhatnagar, AOC	65221	Ahmer Iqbal, Arty
65176	Abhijit Nair, Arty	65222	Suraj Prakash Dash Arty,
65177	Nitin Kumar Singh, Inf	65223	Shibu SL, Inf
65178	Arjun Singh, Inf	65225	Sudhanshu Gupta, ASC
65179	Rahul Singh, Engrs	65226	Seetendra Singh, Inf
65180	Preet Singh, Engrs	65227	Harpal Singh, Sigs
65181	Atul Raj Singh, ASC	65228	Dhirendra Singh, Arty
65182	Rahul Badola, AAD	65229	Rohit Ganguli, Inf
65183	Nikhil Pendharkar, AC	65230	Gopal Soni, Arty
65184	Prabhu Ramdas Waman, Inf	65231	Sushant Kumar Jha, Engrs
65185	Jaipal Singh, Engrs	65232	Prashant Singh, Arty
65186	Pavinder Singh, Inf	65233	Anand Kumar, Inf
65188	Anand Jha, Inf	65234	Ankur Maharaj Singh, AC
65189	Tarun Kumar, Arty	65235	Aditya Kumar Devrani, Arty
65190	Dharamvir Jamwal, Inf	65236	Bhupinder Singh, Inf
65191	Rahul Panwar, Inf	65238	Heisnam Pritam Singh, Arty
65192	Harminder Singh, Arty	65239	Joby J Thomas, ASC
65193	Rajesh Kumar Jhingia, Mech Inf	65240	Kumud Maini, Inf
65194	RK Vikram, Inf	65241	PS Prasanna, AC
65195	Kiran Kumar Giri, Engrs	65242	Amit John Coutinho, Arty
65196	Kalesh K Raman, Engrs	65243	Rameshwar Nath Jha, AAD
65197	Mukesh, ASC	65244	Ashish Pasbola, Inf
65198	Amanpreet Singh, Arty	65245	Imran Ahmad Siddiqi, Inf
65199	Ishwar Singh Dahiya, Arty	65246	Balwan Singh, Inf
65200	Rajinder Singh, Inf	65247	Rahul Pandey, ASC
65201	Dennis Andrew Johnson, Engrs	65248	Vivek Singh, AAD



65249	Mukund Gururaj, Inf	WS-00520, Bhupinder Blaggan, AOC, 02 Sep 2001, WSES-16 (NT), 02 Sept 2007
65250	Tribhuvan Pant, Inf	
65252	Karan Bir Sahi, Arty	WS-00524, Divya Singh, AOC, 02 Sep 2001, WSES-16 (NT), 02 Sept 2007
65253	Amber Raj, Arty	
65254	Charul Sharma, AC	WS-00525, Man Mohinder Kaur, AOC, 02 Sep 2001, WSES-16 (NT), 02 Sept 2007
65255	Piyush Krishna, Arty	
65256	D Kohli, Inf	WS-00528, Meenakshi Agarwal, AOC, 02 Sep 2001, WSES-16 (NT), 02 Sept 2007
65257	Yuvraj Singh Rathore, Inf	
65258	Rohit Thool, AAD	WS-00531, Dolly Tewari, ASC, 02 Sep 2001, WSES-16 (NT), 02 Sept 2007
65259	Shailender Singh, Inf	
65260	Jaswinder Pal Singh, Arty	WS-00533, Bindu Nair, Engrs, 02 Sep 2001, WSES-16 (NT), 02 Sept 2007
65263	Kanishka, Arty	
65264	V Sidharth, Inf	WS-00535, Brahm Shakti Hooda, ASC, 02 Sep 2001, WSES-16 (NT), 02 Sept 2007
65265	Gaurav Thapa, Inf	
65266	Pratim Banerjee, AOC	WS-00536, Sonika Arora, AOC, 02 Sep 2001, WSES-16 (NT), 02 Sept 2007
65267	Harsh Gusain, Mech Inf	
		WS-00541, Roli Chauhan, AOC, 02 Sep 2001, WSES-16 (NT), 02 Sept 2007
		WS-00542, Sonali Tyagi, AOC, 02 Sep 2001, WSES-16 (NT), 02 Sept 2007

—03 Nov 2007

## SHORT SERVICE COMMISSION (WSES)

## Capt to be Major

WS No., Name, Arm, Rdos for Promotion, Course Subs  
Maj Wef

WS-00483, Manmeet Bhusari, AOC, 02 Sep 2001, WSES-16 (NT), 02 Sept 2007

WS-00484, Jyoti Bisht, Int, 02 Sep 2001, WSES-16 (NT), 02 Sept 2007

WS-00489, Shivani Negi, ASC, 02 Sep 2001, WSES-16 (NT), 02 Sept 2007

WS-00494, Anu Singh Randhawa, AOC, 02 Sep 2001, WSES-16 (NT), 02 Sept 2007

WS-00497, Umeeed Thapa, AOC, 02 Sep 2001, WSES-16 (NT), 02 Sept 2007

WS-00501, Kalyani Deshpande, Engrs, 02 Sep 2001, WSES-16 (NT), 02 Sept 2007

WS-00502, Maanta Singh, ASC, 02 Sep 2001, WSES-16 (NT), 02 Sept 2007

WS-00510, Komal Singh, EME, 02 Sep 2001, WSES-16 (NT), 02 Sept 2007

WS-00517, Kirti Tripathy, ASC, 02 Sep 2001, WSES-16 (NT), 02 Sept 2007

WS-00519, GV Anitha, ASC, 02 Sep 2001, WSES-16 (NT), 02 Sept 2007

WS-00543, Rakhi Konher, ASC, 02 Sep 2001, WSES-16 (NT), 02 Sept 2007

WS-00562, Karuna Thapliyal, AEC, 03 Sep 2001, WSES-17 (NT), 03 Sept 2007

WS-00589, Gurpreet Kaur Gill, AEC, 03 Sep 2001, WSES-17 (NT), 03 Sept 2007

WS-00590, Depali Sinha, AEC, 03 Sep 2001, WSES-17 (NT), 03 Sept 2007

WS-00737, Hanna Paulose, Sigs, 08 Sep 2001, WSES-21 (T), 08 Sept 2007

WS-00738, Amandeep Kaur, Sigs, 08 Sep 2001, WSES-21 (T), 08 Sept 2007

WS-00746, Francis Cheryl Caroline Raj Joseph, Sigs, 08 Sep 2001, WSES-21 (T), 08 Sept 2007

WS-00748, Deosta Elsie, Engrs, 08 Sep 2001, WSES-21 (T), 08 Sept 2007

WS-00754, Deepika Malhotra, EME, 08 Sep 2001, WSES-21 (T), 08 Sept 2007

WS-00756, Sawant Dhanshri Sampatrao, Engrs, 08 Sep 2001, WSES-21 (T), 08 Sept 2007

WS-00758, Pandey Nandini Ramchandra, EME, 08 Sep 2001, WSES-21 (T), 08 Sept 2007

WS-00781, Archana Gusain, Sigs, 08 Sep 2001, WSES-21 (T), 08 Sept 2007

WS-00782, Anju Tiwari, Sigs, 08 Sep 2001, WSES-21 (T), 08 Sept 2007

WS-00785, Surabhi Sharma, Engrs, 08 Sep 2001, WSES-21 (T), 08 Sept 2007

JASWANT SINGH  
Jt. Dir  
MS-8C

No. 115, dated 14th February 2008.—The President is pleased to make substantive promotions of Major General to the following officers:—

#### REGULAR ARMY

##### PERMANENT COMMISSION

To be Substantive Maj Gen

IC No., Rank, Name, Arm, D.O. Subs Maj Gen

IC-25119 Brig RK Kalia SM, Arty, 01.11.2006

IC-25806 Brig RK Arora, Punjab, 06.07.2007 with seniority from 01.11.2006 without effect on pay and

IC-27022 Brig Lal AK, Punjab, 01.11.2006

IC-32731 Brig Maindarkar UM, 66 AR, 01.11.2006

IC-27208 Brig SP Choudhary, EME, 31.05.2007 with seniority from 01.11.2006 without effect on pay and pension

IC-33015 Brig E JACob Kocheikkan, 5 GR, 02.11.2006

IC-32844 Brig Ram Pratap, AAD, 02.11.2006

IC-27601 Brig SN Shah, Engr, 23.02.2007 with seniority from 02.11.06 without effect on pay and pensoin

IC-27606 Brig AK Singh, VSM, 7 Cav, 02.11.2006

IC-27608 Brig RK Hooda, Guards, 02.11.2006

IC-27616 Brig K Surendra Nath, Mech Inf, 02.11.2006

IC-27619 Brig Hardev Singh, Mech Inf, 02.11.2006

IC-27628 Brig AKS Sheoran, 9 Horse, 02.11.2006

IC-27673 Brig D Rajan, Arty, 01.01.2007

IC-27679 Brig NC Marwah, Kumaon, 08.01.2007

IC-27701 Brig DS Sidhu, 17 Horse, 01.02.2007

IC-27708 Brig AK Malik VSM, Jak Li, 01.02.2007

IC-27767 Brig Pradeep Bhalla, AOC, 23.02.2007

IC-27778 Brig Jagbir Singh Kundu, Arty, 23.02.2007

IC-27782 Brig PG Kamath, Madras, 01.03.2007

IC-33085 Brig CM Sharma, Arty, 01.05.2007

IC-27956 Brig GS Malhi, 7 Cav, 19.05.2007

IC-27962 Brig KVS Lalotra, 11 GR, 19.05.2007

IC-27967 Brig SP Singh, Arty (GC), 19.05.2007

IC-27968 Brig SK Bhardwaj, Gren, 19.05.2007

IC-27969 Brig Rajesh Pant, VSM, Sigs, 01.09.2007 with

seniority from 19.05.2007 without effect on pay and pension

IC-27971 Brig Sanjeev Loomba, 63 Cav, 19.05.2007

IC-27972 Brig Gyan Bhushan, Mahar, 19.05.2007

IC-27979 Brig JS Bajwa, Kumaon, 01.06.2007

IC-27990 Brig Sibal Munish, Raj Rif, 01.07.2007 with seniority from 01.06.2007 without effect on pay and pension

IC-27994 Brig PS Bhalla, 64Cav, 01.07.2007 with semority from 01.06.2007 without effect on pay and pension

IC-30010 Brig DS Thakur, Mli, 01.08.2007 with seniority from 01.06.2007 without effect on pay and pension

IC-30016 Brig Anil Chait, 73Ar, 01.08.2007 with seniority from 01.06.2007 without effect on pay and pension

IC-30048 Brig KS Sethi, Punjab, 14.08.2007 with seniority from 02.06.2007 without effect on pay and pension

IC-30051 Brig Rajinder Singh, Bihar, 01.09.2007 with seniority from 02.06.2007 without effect on pay and pension

IC-30052 Brig BS Daulata, Dogra, 01.09.2007 with seniority from 02.06.2007 without effect on pay and pension

IC-30053 Brig RK Kalara, AAD, 01.09.2007 with seniority from 02.06.2007 without effect on pay and pension

IC-30068 Brig SP Tanwar, Arty, 01.09.2007 with seniority from 02.06.2007 without effect on pay and pension

IC-30076 Brig SC Nair, Rajput, 01.09.2007 with seniority from 02.06.2007 without effect on pay and pension

IC-30085 Brig JDA Rawat, SM, Int, 01.09.2007 with seniority from 02.06.2007 without effect on pay and pension

IC-30089 Brig Narendra Singh, SM, VSM Mli, 01.10.2007 with seniority from 03.06.2007 without effect on pay and pension

IC-30109 Brig VK Tiwari, Arty, 01.10.2007 with seniority from 03.06.2007 without effect on pay and pension

IC-30118 Brig A Mukherjee, Arty, 01.10.2007 with seniority from 03.06.2007 without effect on pay and pension

N K PHUKAN  
AMS/MS(X)

No. 116, dated 14th February 2008.—The President is pleased to make the following promotions:—

#### REGULAR ARMY

##### INTELLIGENCE CORPS

To be Nb Sub Int GD

Rank, Name, Old Army No., New JC-No., Date of Promotion

Hav/Int GD Om Prakash (No. 7430580N now JC-810920M), 01 Jun 2005

Hav/Int GD Bagesh Kumar (No. 7430587N now JC-

810921P), 01 Jun 2005

Hav/Int GD Harudananda Pothal (No. 7430589Y now JC-810924H), 01 Jul 2005

Hav/Int GD Choudhury Yashpal Singh (No. 7430520P now JC-810925L), 01 Jul 2005

Hav/Int GD Sabu MM (No. 7430608Y now JC-810926N), 01 Aug 2005

Hav/Int GD Murleedharan R (No. 7430609F now JC-810927W), 01 Aug 2005

Hav/Int GD Thomas George (No. 7430610W now JC-810928Y), 01 Aug 2005

Hav/Int GD Ramesh Chandra Joshi (No. 7430594K now JC-810929F), 01 Aug 2005

Hav/Int GD Gopa Kumar CR (No. 7430611Y now JC-810930W), 01 Sep 2005

Hav/Int GD Triveni Chandra (No. 7430596P now JC-810931Y), 01 Sep 2005

Hav/Int GD Syed Afzal Ali (No. 2676738P now JC-810933K), 01 Oct 2005

Hav/Int GD Harwinder Singh (No. 2476759F now JC-810934M), 01 Oct 2005

Hav/Int GD Pooran Chandra (No. 7430597X now JC-810935P), 01 Oct 2005

Hav/Int GD Shib Shankar Dey (No. 6378835L now JC-810936X), 01 Nov 2005

Hav/Int GD Palve Amba Das Hari Bhua (No. 7430584A now JC-810937A), 01 Nov 2005

Hav/Int GD Pawan Kumar Chauhan (No. 7430598A now JC-810938H), 01 Nov 2005

Hav/Int GD Sanjay Kumar Sonkhutia (No. 7430612F now JC-810940A), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Jitendra Kumar Mangendra (No. 7430615P now JC-810941H), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Ramnarayan Saini (No. 7430617A now JC-810942L), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Prayag Singh Rajput (No. 7430618H now JC-810943N), 08 Nov 2005

Hav/Int GD M Jesu Michel Alexander (No. 7430633X now JC-810944W), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Subhas Chandra Prodhan (No. 7430635H now JC-810945Y), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Rakesh Chandra (No. 7430488L now JC-810946F), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Munnangi Siva Reddy (No. 7430539H now JC-810947K), 08 Nov 2005

Hav/Int GD G Gopi (No. 7430636L now JC-810948M), 08 Nov 2005

Hav/Int GD V Murugan (No. 7430637N now JC-810949P), 08 Nov 2005

Hav/Int GD S Vinaygam (No. 7430639Y now JC-810950K), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Dilip Kumar Biswas (No. 7430641W now JC-810951M), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Sudip Kumar Das (No. 7430645M now JC-810952P), 08 Nov 2005

Hav/Int GD S Subhaskara Babu (No. 7430648A now JC-810953X), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Subhash Chander Dular (No. 7430651A now JC-810954A), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Mohan Lal (No. 7430656Y now JC-810955H), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Donewadi Basavraj Sidram (No. 7430662M now JC-810956L), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Rajput Harmander Singh (No. 7430669W now JC-810957N), 08 Nov 2005

Hav/Int GD MD Lookman Ansari (No. 7430673Y now JC-810958W), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Mansoor Ansari (No. 7430675K now JC-810959Y), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Ravikant Dwivedi (No. 7430677P now JC-810960N), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Patil Yogaraj Shri Ram (No. 7430680P now JC-810961W), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Pradip Kumar Sen Gupta (No. 7430685M now JC-810962Y), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Solanki Devshi Bhai (No. 7430689K now JC-810963F), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Kiran Pal (No. 7430504X now JC-810964K), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Mahendra Kumar Patel (No. 7430697H now JC-810965M), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Rajinder Singh (No. 7430698L now JC-810966P), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Gopal Singh Rathore (No. 7430716H now JC-810967X), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Naviri Mallswara Rao (No. 7430646P now JC-810968A), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Kotadia Dharmesh Govind (No. 7430691F now JC-810969H), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Chavan Madhukar Parasu (No. 7430742K now JC-810970X), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Sher Singh (No. 7430753W now JC-810971A), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Karnail Singh (No. 7430758P now JC-810972H), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Swadhina Keshari Naik (No. 7430762X now JC-810973L), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Bhola Prasad (No. 7430765L now JC-810974N), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Sajeevan CV (No. 7430767W now JC-810975N), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Narendra Singh Bisht (No. 7430768Y now JC-810976Y), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Girish Babu (No. 7430772F now JC-810977F), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Nirmal Singh Dadhwal, SM (No. 7430778H now JC-810978K), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Abraham NP (No. 7430779L now JC-810979M), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Rejeti Venugopal (No. 7430781H now JC-810980F), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Manjit Singh Grewal (No. 7430561Y now JC-810981K), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Bhawar Singh Rathore (No. 7430782L now JC-810982M), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Ravinder Singh (No. 7430783N now JC-810983P), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Dinesh Prabhakar Waklekar (No. 7430785Y now JC-810984X), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Khalid Husain Khan (No. 7430787K now JC-810985A), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Rane Laxman Vasudev (No. 7430788M now JC-810986H), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Ajit Singh (No. 7430789P now JC-810987L), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Satyapal Singh (No. 7430797M now JC-810988N), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Ananta Sharma (No. 7430801L now JC-810989W), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Sathisa Shenoy (No. 7430624W now JC-810993Y), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Khushal Singh (No. 4177503Y now JC-810994F), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Deshmukh Dhannjay Shankar, (No. 7430665A now JC-810995K), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Laxman Genu Kharade (No. 7430777A now JC-810996M), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Pradeep Kumar KN (No. 7430542N now JC-810997P), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Patel Arvind Bhai Vira Bhai (No. 7430687Y now JC-810998X), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Ashok Kumar Yadav (No. 7430552X now JC-810999A), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Padawale Krishna Bhagwan (No. 7430766N now JC-811000F), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Chutra Ram Pichkiya (No. 7430664X now JC-811001K), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Abdur Rasheed Shirahatti (No. 7430780A now JC-811002M), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Charan Singh (No. 7430786F now JC-811003P), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Pranab Sur (No. 7430642Y now JC-811005A), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Onkar Nath Tiwari (No. 7430805F now JC-811006H), 01 Dec 2005

Hav/Int GD Vir Singh (No. 7430806K now JC-811007L), 01 Jan 2006

Hav/Int GD Rajinder Kumar (No. 7430807M now JC-811008N), 01 Jan 2006

Hav/Int GD Sunil Kumar (No. 7430809X now JC-811009W), 01 Jan 2006

Hav/Int GD Surendra Nath Yadava (No. 7430810M now JC-811010L), 01 Jan 2006

Hav/Int GD Sudhir Kumar Singh Pal (No. 7430803W now JC-811011N), 01 Dec 2005

Hav/Int GD Jagdish Singh (No. 2983223W now JC-811012W), 01 Jan 2006

Hav/Int GD Lal Singh Supehya (No. 7430754Y now JC-811013Y), 08 Nov 2005

Hav/Int GD Rajendra S (No. 1068273X now JC-811014F), 01 Oct 2005

Hav/Int GD Anil Kumar D (No. 7430811P now JC-811015K), 01 February 2006

Hav/Int GD Arbind Singh (No. 7430812X now JC-811016M), 01 February 2006

Hav/Int GD Bhanwar Singh (No. 7430813A now JC-811017P), 01 February 2006

Hav/Int GD Om Prakash Singh (No. 7430816N now JC-811018X), 01 Mar 2006

Hav/Int GD Prodip Kalita (No. 7430652L now JC-811019A), 01 Mar 2006

Hav/Int GD Rajib Gogoi (No. 7430653L now JC-811021X), 01 Apr 2006

Hav/Int GD Raj Kumar Yadav (No. 7430829L now JC-811022A), 01 Apr 2006

Hav/Int GD Roshan Lal (No. 7430819F now JC-811023H), 01 Apr 2006

Hav/Int GD Dev Dutt Yadav (No. 7430821Y now JC-811024L), 01 Apr 2006

Hav/Int GD Golap Bora (No. 7430830A now JC-811025N), 01 Apr 2006

Hav/Int GD Ashini Kumar Rath (No. 7430833N now JC-811026W), 01 Apr 2006

Hav/Int GD Shri Kant (No. 7430836F now JC-811027Y), 01 Apr 2006

Hav/Int GD Prodeep Borah (No. 7430837K now JC-811028F), 01 Apr 2006

Hav/Int GD Nadar Ashok R Punaswami, (No. 7430838M now JC-811029K), 01 Apr 2006

Hav/Int GD Chaman Lal (No. 7430841M now JC-811030Y), 01 Apr 2006

Hav/Int GD Aloke Halder (No. 7430842P now JC-811032K), 01 Jun 2006

Hav/Int GD Mool Chand Verma (No. 7430846L now JC-811033M), 01 Jun 2006

Hav/Int GD Raj Kumar Singh (No. 1069908X now JC-811034P), 01 Jun 2006

Hav/Int GD Manganpal Singh SilayACh (No. 7430851W now JC-811038L), 01 Jul 2006

Hav/Int GD Madhavan CK (No. 7430852Y now JC-811039N), 01 Jul 2006

Hav/Int GD Chittaranjan Mandal (No. 7430823K now JC-811040H), 01 Jun 2006

Hav/Int GD Rajendra Singh (No. 1078458M now JC-811042N), 01 Aug 2006

Hav/Int GD Thakare Rajendra LS (No. 7430864N now JC-811043W), 01 Aug 2006

Hav/Int GD Naresh Kuamar (No. 7430884F now JC-811044Y), 01 Aug 2006

Hav/Int GD Ram Sukh Bishnoi (No. 7430885K now JC-811045F), 01 Aug 2006

Hav/Int GD Kadam Anil Eknath (No. 7430892A now JC-811046K), 01 Aug 2006

Hav/Int GD Giri Sushil Kumar Loknath (No. 7430895N now JC-811047M), 01 Aug 2006

Hav/Int GD P Sugeandran (No. 7430896M now JC-811048P), 01 Aug 2006

Hav/Int GD Gulab Singh (No. 7430899K now JC-811049X), 01 Aug 2006

Hav/Int GD Pardhi Laxman Vithal (No. 7430824M now JC-811050N), 01 Aug 2006

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01.04.2006 without effect on pay and allces)

Hav/Int GD K Jeya Kumar (No. 7430927L now JC-811051P), 01 Aug 2006

Hav/Int GD Satish Kumar (No. 7430928H now JC-811052X), 01 Aug 2006

Hav/Int GD Ashok Kumar Katoch (No. 7430929W now JC-811053A), 01 Aug 2006

Hav/Int GD Keshav Chandra Mohanta (No. 7430935K now JC-811054H), 01 Sep 2006

Hav/Int GD Chandrandu Kumar (No. 7430936M now JC-811055L), 01 Sep 2006

Hav/Int GD Madan Lal (No. 7430945N now JC-811056N), 01 Sep 2006

Hav/Int GD Subash Chandra Sain (No. 7430953M now JC-811057W), 01 Sep 2006

Hav/Int GD Om Prakash (No. 13885439P now JC-811061Y), 01 Oct 2006

Hav/Int GD Surya Pal (No. 14486065Y now JC-811062F), 01 Oct 2006

Hav/Int GD Shri Bhagwan Singh (No. 7430630K now JC-811064M), 01 Nov 2006

Hav/Int GD Vijay Sharma (No. 7430839P now JC-811065P), 01 Nov 2006

Hav/Int GD Krish Dhan Dutta (No. 7430860X now JC-811066X), 01 Nov 2006

Hav/Int GD Yash Pal (No. 7430954P now JC-811070A), 01 Jan 2007

Hav/Int GD Syam Chandra Biswas (No. 7430859H now JC-811072L), 01 February 2007

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01.08.2006 without effect on pay and allces)

Hav/Int GD Debendra Pradhan (No. 7430958L now JC-811073N), 01 February 2007

Hav/Int GD Guraka Venkateswarlu (No. 7430855N now JC-811074W), 01 February 2007

Hav/Int GD Gapiit Ramesh Bhai Zina Bhai (No. 7430890P now JC-811075Y), 01 February 2007

Hav/Int GD Ram Kumar Ishwar (No. 7430939A now JC-811077K), 01 Mar 2007

Hav/Int GD Ravi R (No. 14910175H now JC-811084A), 01 Apr 2007

Hav/Int GD Birendra Singh Rawat (No. 4066119H now JC-811085H), 01 Apr 2007

Hav/Int GD Ramesh Prasad (No. 14701272P now JC-811086L), 01 Apr 2007

Hav/Int GD Gangadhar Sahu (No. 7430848W now JC-811087N), 01 May 2007

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01.07.2006 without effect on pay and allces)

Hav/Int GD Rajendra Singh (No. 4066223W now JC-811088W), 01 May 2007

Hav/Int GD Birendra Bahadur Shai (No. 5845576A now JC-811089Y), 01 May 2007

Hav/Int GD Om Prakash Thapliyal (No. 4066293P now JC-811090N), 01 May 2007

Hav/Int GD Diwan Singh (No. 4066431L now JC-811094K), 01 May 2007

Hav/Int GD Shakti Chand (No. 14379385W now JC-811095M), 01 Jun 2007

Hav/Int GD K Radhakrishnan (No. 14911948K now JC-811096P), 01 Jun 2007

Hav/Int GD Dinesh Chandra (No. 4067169A now JC-811097X), 01 Jun 2007

Hav/Int GD Gurmej Singh (No. 14382688W now JC-811098A), 01 Jun 2007

Hav/Int GD Ganga Singh (No. 4178909Y now JC-811099H), 01 Jun 2007

Hav/Int GD Mahinder Singh (No. 2679759W now JC-811100M), 01 Jun 2007

Hav/Int GD Gajendra Singh (No. 4179908H now JC-811101P), 01 Jun 2007

Hav/Int GD Nagendra Singh (No. 14262397A now JC-811103A), 01 Jul 2007

Hav/Int GD Subhash Chandra (No. 14264762P now JC-811104H), 01 Jul 2007

Hav/Int GD Harish Chandra Tiwari (No. 4180179X now JC-811106N), 01 Aug 2007

Hav/Int GD Sudershan Singh (No. 4069075X now JC-811107W), 01 Aug 2007

Hav/Int GD Govind Ballabh (No. 4180986M now JC-811109F), 01 Sep 2007

Hav/Int GD Pargat Singh (No. 2479713K now JC-811110W), 01 Sep 2007

Hav/Int GD Chatar Singh (No. 2987417W now JC-811111Y), 01 Sep 2007

Hav/Int GD Chitaranjan Nayak (No. 7430962N now JC-811112F), 01 Sep 2007

To be Nb Sub Clk GD

HAV/Clk GD Pohap Singh (No. 7430422P now JC-810922X), 01 Jul 2005

HAV/Clk GD Shyam Sunder VS (No. 7430423X now JC-810923A), 01 Jul 2005

HAV/Clk GD Kashinath Pandey (No. 7430827A now JC-810939L), 01 Oct 2005

HAV/Clk GD Nand Lal Singh (No. 7430426L now JC-810990L), 01 Nov 2005

HAV/Clk GD Nissar Hussain (No. 7430429Y now JC-810991N), 01 Dec 2005

HAV/Clk GD Ram Kumar Sharma (No. 7430432Y now JC-810992W), 01 Dec 2005

HAV/Clk GD Sukhvir Singh (No. 7430433F now JC-811004X), 01 Jan 2006

HAV/Clk GD Brijesh Kumar (No. 7430435M now JC-811020P), 01 Mar 2006

HAV/Clk GD Ram Kumar Jat (No. 7430438A now JC-811031F), 01 May 2006

HAV/Clk GD B Thirupathi (No. 7430440X now JC-811035X), 01 Jun 2006

HAV/Clk GD Pratap Singh Manta (No. 2676840X now JC-811036A), 01 Jun 2006

HAV/Clk GD Jemunalal S (No. 2882164N now JC-811037H), 01 Jul 2006

HAV/Clk GD Ram Sabadh (No. 7430444N now JC-811041L), 01 Jul 2006

HAV/Clk GD Sivan VS (No. 2477325N now JC-811058Y), 01 Sep 2006

HAV/Clk GD Manindra Nath Sahu (No. 7430428W now JC-811059F), 01 Sep 2006

HAV/Clk GD Ajit Singh (No. 7430439H now JC-811060W), 01 Sep 2006

HAV/Clk GD Umed Singh (No. 7430441A now JC-811063K), 01 Oct 2006

HAV/Clk GD Ompal Singh (No. 7431168H now JC-811067A), 01 Nov 2006

HAV/Clk GD Jaims MS (No. 9923018M now JC-811068H), 01 Dec 2006

HAV/Clk GD Ishwar Singh (No. 14912345A now JC-811069L), 01 Jan 2007

HAV/Clk GD Satya Deo Roy (No. 4067796M now JC-811071H), 01 Jan 2007

HAV/Clk GD Shyam Prasad Chakravarti (No. 4068401M now JC-811076F), 01 Feb 2007

HAV/Clk GD Mahesh Prasad (No. 4068613X now JC-811078M), 01 Mar 2007

HAV/Clk GD Ram Prasad Yadav (No. 7430403K now JC-811102X), 01 Jul 2007

HAV/Clk GD Rampal Singh Chandel (No. 2477377K now JC-811105L), 01 Aug 2007

HAV/Clk GD Sudhir Chandra Das (No. 14254772L now JC-811108Y), 01 Sep 2007

To be Nb Sub TRL/TCL

HAV/TRL AVR Murthy (No. 14806146F now JC-810932A), 07 Sep 2005

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allces)

HAV/TRL UC Jain (No. 15376835N now JC-811079P), 15 Nov 2005

HAV/TRL ML Samanta (No. 15376877A now JC-811080K), 01 Jul 2006

HAV/TRL Pramod Kumar KR (No. 15373343K now JC-811081M), 01 Sep 2006

HAV/TRL Manoj Kumar (No. 15378746N now JC-811082P), 01 Sep 2006

HAV/TRL Santosh Kumar (No. 6389110L now JC-811083X), 01 Oct 2006

HAV/TCL Bijaya Gurung (No. 5449308A now JC-811091W), 25 Feb 2007

HAV/TCL Bijaya Kumar Sahu (No. 14269320A now JC-811092Y), 01 May 2007

HAV/TCL Battu Lal Jatav (No. 15366917H now JC-811093F), 01 Feb 2007

HAV/TRL Ashok Kumar Mishra (No. 15380567M now JC-811113K), 08 Mar 2007

HAV/TRL Indrajeet Singh (No. 15375948K now JC-811114M), 01 Jun 2007

JAI RAJ

Under Secy.

## ARMY BRANCH

### CORRIGENDUM

No. 117, Dated 14th February 2008—In the Government of India, Ministry of Defence, published in the Gazette of India, New Delhi, dated 19 May 2007 under heading Regular Army, Permanent Commission, to be Substantive Brigadier, Army Branch is hereby amended as under:—

D.O. Subs Brigadier

For : Col KA Nair 01.10.06 with seniority from (IC-30893), Mech Inf 01.03.05 without effect on pay and pension

Read : Col KA Nair 01.10.06 with seniority from (IC-30893), Mech Inf 01.05.05 without effect on pay and pension

N. K. PHUKAN

Jt. Dir

MS(X)